



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 11—जुलाई 17, 2009 (आषाढ़ 20, 1931)

No. 28]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 11—JULY 17, 2009 (ASADHA 20, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 जुलाई 2009

थल सेना शाखा

सं. 374, दिनांक 26 मई 2009—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

मराठा लाईट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

धर्म शिक्षक मोहम्मद रियाजुद्दीन (जेसी-450884एच), 15 नवम्बर 2008

विशेष सूची

ग्रिनेडियर्स

नायब सूबेदार के रैंक में

विशव नाथ मिश्रा (जेसी-450493डब्ल्यू), 06 सितम्बर 2008

प्रेम शंकर द्विवेदी (जेसी-450494वाई), 06 सितम्बर 2008

जे राय चौधरी
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 375, दिनांक 26 मई 2009—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर से ले. कर्नल

आईसी सं., नाम, आर्म तथा लेफ्टि कर्नल दिनांक से

(37876) निर्मल सिंह, आर्मी एविएशन, 16 दिसम्बर 2004

(45103) अरविन्द जोशी, एओसी, 16 दिसम्बर 2004

(52188) विनोद जोशी, इन्फैन्ट्री, 12 जून 2006

(53246) रजीव कुमार शर्मा, आर्टी, 10 दिसम्बर 2007

(53309) देवेश दुआ, इंजीनियर्स, 10 दिसम्बर 2007

(53662) संजय शान्दिल, एसी, 10 जून 2008

(53697) समीर बक्शी, इन्फैन्ट्री, 10 जून 2008

(53711) बाई विजया कुमार, इन्फैन्ट्री, 10 जून 2008

(53733) संजय सिन्हा, इन्फैन्ट्री, 10 जून 2008

(53741) पंकज वेनिवाल, आर्टी, 10 जून 2008

(53744) अरविन्द मोहन सिंह, आईएनटी, 10 जून 2008

(53783) अमिताभ कुमार, एसी, 10 जून 2008

(53794) कुशल कार, आर्टी, 10 जून 2008

(53807) संदीप धर, इंजीनियर्स, 10 जून 2008

(53957) दीपक रावल, आर्मी एविएशन, 09 दिसम्बर 2008

(53965) अनूप कुमार मुन्धरा, आर्टी, 09 दिसम्बर 2008

(53989) रोहित कुशवाहा, आर्टी, 09 दिसम्बर 2008

(54127) शंकर पोद्दार, एओसी, 09 दिसम्बर 2008

(54227) सरना प्रकाश पांडे, एडी आर्टी, 09 दिसम्बर 2008

(54233) मोहोर घोष, एएससी, 09 दिसम्बर 2008

(54234) अशीष कुमार, इन्फैन्ट्री, 09 दिसम्बर 2008

(55139) राम कृष्ण दास कपूर, एएससी, 03 नवम्बर 2007

(55169) के अन्नसुधन, एओसी, 03 नवम्बर 2007

(55341) प्रदीप कुमार सिंह, एडी आर्टी, 11 नवम्बर 2008

(55357) दीपक गुप्ता, आर्मी एविएशन, 11 नवम्बर 2008

(55406) रमिन्दर सिंह वाचर, एएससी, 11 नवम्बर 2008

(57324) दोइफोडे मोहन राजाराम, ईएमई, 11 जून 2008

(57723) योगेश कुमार गांधी, इंजीनियर्स, 10 दिसम्बर 2008

(55241) रविन्द्र शर्मा, एएससी, 18 अप्रैल 2008

(55340) ललित शर्मा, इन्फैन्ट्री, 11 नवम्बर 2008

(53509) राहुल सरीन, एओसी, 10 जून 2008

(53163) अरुण उनियाल, आर्टी, 10 दिसम्बर 2007

(53934) यशदीप संगवान, इन्फैन्ट्री, 09 दिसम्बर 2008

(53939) हिमांशु कटारिया, इन्फैन्ट्री, 09 दिसम्बर 2008

(53990) अविनाश नाथन, आईएनटी, 09 दिसम्बर 2008

(53994) सुरेन्द्र चौहान, मैक इन्फैन्ट्री, 09 दिसम्बर 2008

मेजर से ले. कर्नल

एसएस सं., नाम, आर्म तथा लेफ्टि. कर्नल दिनांक से

(36295) कौशल एन ठाकुर, आर्टी, 11 नवम्बर 2008

कप्तान से मेजर

आईसी सं., नाम, आर्म तथा मेजर दिनांक से

(59740) संदीप कुमार, एएससी, 10 जून 2006

(62163) रमन झा, इन्फैन्ट्री, 08 जून 2008

(62537) जसबीर सिंह, एएडी, 10 दिसम्बर 2008

(62582) निखिल सुहास फडके, इन्फैन्ट्री, 10 दिसम्बर 2008

(62666) देनू अप्रेम थॉमस, इन्फैन्ट्री, 10 दिसम्बर 2008

(62667) मुकेश कुमार, आर्टी, 10 दिसम्बर 2008

(62681) अजय सहरावत, एएडी, 10 दिसम्बर 2008

(62708) रजत कुमार, आर्टी, 10 दिसम्बर 2008

(62757) सुदीप मनहेरी, एओसी, 10 दिसम्बर 2008

(62763) परवीन शर्मा, इन्ट, 10 दिसम्बर 2008

(62864) फाल्के सचिन मोहन, आर्टी, 10 दिसम्बर 2008

(62907) अनुराग चतुर्वेदी, आर्टी, 10 दिसम्बर 2008

(62927) सतीश मेहरा, एएडी, 10 दिसम्बर 2008

(65536) प्रशांत जोतिबा माने, एसी, 02 नवम्बर 2008

(65572) अरिन्दम बर्धन, इन्फैन्ट्री, 02 नवम्बर 2008

(65619) पेशाल मनोचा, इन्फैन्ट्री, 02 नवम्बर 2008

(65627) दिव्य मनी शुक्ला, इंजीनियर्स, 02 फरवरी 2009

अल्प-कालीन सेवा कमीशन (डब्ल्यू एस)

कप्तान से मेजर

डब्ल्यूएस सं., नाम, आर्म, कोर्स सं., पदोन्नति के लिए संशोर्षित
तिथि तथा मेजर तिथि से

(00641) मानूल सिंह, एएससी, 19 (नान टैक), 02 मार्च 2009

(00644) कविता राजपूत, सिग्नल्स, 19 (नान टैक)
2003--02 मार्च 2009

(00646) रश्मि मिश्रा, इन्ट, 19 (नान टैक), 02 मार्च 2009

(00651) गीताजंली भट्ट, सिग्नल्स, 19 (नान टैक)
2003--02 मार्च 2009

(00663) लारेमबम रीना देवी, सिग्नल्स, 19 (नान टैक)
2003--02 मार्च 2009

(00664) के एम मनीषा तिवारी, ईएमई, 19 (नान टैक)
2003--02 मार्च 2009

(00668) सुमन, ईएमई, 19 (नान टैक), 02 मार्च 2003--02 मार्च 2009

(00672) पल्लवी सिन्हा, सिग्नल्स, 19 (नान टैक), 02 मार्च 2003--02 मार्च 2009

(00673) पूजा गुप्ता, एओसी, 19 (नान टैक), 02 मार्च 2003--02 मार्च 2009

(00676) एनी वर्गीस, एससी, 19 (नान टैक), 02 मार्च 2003--02 मार्च 2009

(00698) ईशानी मैत्रा, आईसी, 20 (नान टैक), 07 मार्च 2003--07 मार्च 2009

(00927) नेहारिका भारद्वाज, एएडी, 24 (टैक), 17 मार्च 2003--17 मार्च 2009

(00930) ऋषिता आचार्य, ईएमई, 24 (टैक), 17 मार्च 2003--17 मार्च 2009

(00951) मीनल चौहान, इंजीनियर्स 24 (टैक), 17 मार्च 2003--17 मार्च 2009

(00952) गिरिजा सी एच, इंजीनियर्स, 24 (टैक), 17 मार्च 2003--17 मार्च 2009

(00953) प्रधन्य कुलकर्णी, इंजीनियर्स, 24 (टैक), 17 मार्च 2003--17 मार्च 2009

(00988) जादव चारुशिला मधुकर, इंजीनियर्स, 24 (टैक), 17 मार्च 2003--17 मार्च 2009

जसवन्त सिंह
संयुक्त निदेशक
एमएस-8सी

सेना विभाग

सं. 376, दिनांक 26 मई 2009--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :--

नियमित सेना

इन्फैंट्री

सिक्ख रेजीमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार मंगल सिंह (जेसी-498559वाई), 06 सितम्बर 2008

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008)

सूबेदार मेजर (संगीतज्ञ) के रैंक में

सूबेदार (संगीतज्ञ) अमरजीत सिंह (जेसी-498889एक्स), 12 जनवरी 2009

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2008)

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार सुरजीत सिंह (जेसी-499402एल), 27 सितम्बर 2008

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 सितम्बर 2008)

नायब सूबेदार बलकार सिंह (जेसी-499618एम), 18 फरवरी 2009

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 दिसम्बर 2008)

नायब सूबेदार राजिन्दर सिंह (जेसी-499664एफ), 18 फरवरी 2009

(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009)

नायब सूबेदार साहिब सिंह (जेसी-499739एन), 22 जनवरी 2009

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009)

नायब सूबेदार लछ्मन सिंह (जेसी-499598के), 01 मार्च 2009

सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) धरमबीर (जेसी-499541पी), 08 जनवरी 2009

(सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2008)

नायब सूबेदार (लिपिक) नार सिंह (जेसी-499578डब्ल्यू), 14 मार्च 2009

(सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009)

नायब सूबेदार (लिपिक) महाबीर सिंह (जेसी-499579वाई), 18 मार्च 2009

(सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2009)

नायब सूबेदार (लिपिक) बरिन्दर सिंह (जेसी-499600डब्ल्यू), 12 मार्च 2009

(सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2009)

कुमाऊँ रेजीमेन्ट

सूबेदार मेजर के पद में

सूबेदार रघुवीर सिंह (जेसी-538970पी), 01 जनवरी 2009

सूबेदार कृष्णा नन्द तिवारी (जेसी-539252एल), 01 जनवरी 2009

सूबेदार सुमित्रा नन्द जोशी (जेसी-539344एक्स), 01 जनवरी 2009
 सूबेदार हुकम सिंह (जेसी-539446एन), 20 जनवरी 2009/01 जनवरी 2009*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 जनवरी 2009 से दी गई है।)

सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद (जेसी-538764एल), 01 फरवरी 2009

गढ़वाल राइफल्स

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार पदम सिंह (जेसी-528962एच), 13 जनवरी 2009*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जाती है।)

सूबेदार राजवर सिंह (जेसी-529171एक्स), 01 अक्टूबर 2008

सूबेदार महेन्द्र सिंह (जेसी-529206एच), 01 दिसम्बर 2008

सूबेदार बिशन दत्त (जेसी-529161एन), 05 फरवरी 2009*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2009 से दी जाती है।)

सूबेदार इन्द्र सिंह (जेसी-529343एफ), 23 फरवरी 2009*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2009 से दी जाती है।)

सूबेदार शीतल सिंह (जेसी-529122पी), 18 मार्च 2009*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जाती है।)

सूबेदार धन सिंह (जेसी-529285एच), 01 अप्रैल 2009

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार ताजवर सिंह (जेसी-530036डब्ल्यू), 11 अगस्त 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार जोत सिंह (जेसी-530096एल), 01 जुलाई 2008

नायब सूबेदार राम सिंह रौतेला (जेसी-530081एच), 07 नवम्बर 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 सितम्बर 2008 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार दलेब सिंह (जेसी-529981एम), 29 नवम्बर 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार सुभाष चन्द्र सिंह (जेसी-529908एफ), 18 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह रावत (जेसी-530017एल), 30 दिसम्बर 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार केशर चन्द (जेसी-530112एक्स), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-530123के), 18 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार मानेन्द्र सिंह (जेसी-530023वाई), 01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार जयपाल सिंह (जेसी-530043एम), 01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार मेहरवान सिंह (जेसी-530074एम), 21 फरवरी 2009*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2009 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार विरेन्द्र सिंह (जेसी-530035एन), 27 मार्च 2009*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 फरवरी 2009 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार पूर्ण सिंह (जेसी-530111पी), 13 मार्च 2009*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जाती है।)

जम्मू और कश्मीर लाईट इन्फैंट्री

सूबेदार मेजर की पदोन्नति के लिए

सूबेदार मोहम्मद खुरशीद (जेसी-592466एच), 03 दिसम्बर 2008

(सूबेदार मेजर के रैंक में 01 दिसम्बर 2008 से वरिष्ठता दी जाती है।)

सूबेदार राम लाल (जेसी-592528एक्स), 03 दिसम्बर 2008

(सूबेदार मेजर के रैंक में 01 दिसम्बर 2008 से वरिष्ठता दी जाती है।)

सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-592537वाई), 01 जनवरी 2009

(सूबेदार मेजर के रैंक में 01 जनवरी 2009 से वरिष्ठता दी जाती है।)

सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-592554वाई), 01 जनवरी 2009

(सूबेदार मेजर के रैंक में 01 जनवरी 2009 से वरिष्ठता दी जाती है।)

सूबेदार सत पाल (जेसी-592762एन), 01 जनवरी 2009

(सूबेदार मेजर के रैंक में 01 जनवरी 2009 से वरिष्ठता दी जाती है।)

डोगरा रेजीमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार कमल सिंह, एसएम (जेसी-519694एच), 23 दिसम्बर 2008+

+(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से)

सूबेदार के रैंक में

- नायब सूबेदार यश पाल (जेसी-520248एन), 17 सितम्बर 2008+
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से)
- नायब सूबेदार कश्मीर सिंह (जेसी-520301एन), 18 दिसम्बर 2008+
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से)
- नायब सूबेदार डोला सिंह (जेसी-520375एच), 18 दिसम्बर 2008+
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाती है।)
- नायब सूबेदार सुरेश सिंह (जेसी-520399एम), 18 दिसम्बर 2008+
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाती है।)
- नायब सूबेदार अनिल कुमार (जेसी-520428डब्ल्यू), 26 नवम्बर 2008+
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 जून 2008 से दी जाती है।)
- नायब सूबेदार कमलेश कुमार (जेसी-520379वाई), 18 जनवरी 2009+
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाती है।)
- नायब सूबेदार सुरेन्द्र कुमार (जेसी-520380एन), 15 जनवरी 2009+
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाती है।)
- नायब सूबेदार लाल चन्द (जेसी-520067एच), 01 दिसम्बर 2008+
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जाती है।)
- नायब सूबेदार सुभाष चन्द (जेसी-520464एफ), 06 जनवरी 2009+
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जाती है।)
- नायब सूबेदार मस्तान सिंह (जेसी-520201एच), 03 जनवरी 2009+
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2008 से दी जाती है।)
- नायब सूबेदार बृज लाल (जेसी-520291पी), 03 जनवरी 2009+
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जाती है।)
- नायब सूबेदार कश्मीर सिंह (जेसी-520413एन), 05 जनवरी 2009+
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जाती है।)

जम्मू और कश्मीर राईफल्स

सूबेदार मेजर (जीडी) के रैंक में

सूबेदार हेम सिंह (जेसी-579495वाई), जैक राईफल्स, 01 दिसम्बर 2008

सूबेदार रतन चन्द (जेसी-579586एच), जैक राईफल्स, 01 जनवरी 2009

सूबेदार (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार टेक चन्द (जेसी-580281पी), जैक राईफल्स, 01 मई 2008

नायब सूबेदार प्रीत सिंह, एससी (जेसी-580401एच), जैक राईफल्स, 01 अगस्त 2008

नायब सूबेदार सुरिन्द्र कुमार (जेसी-580425एम), जैक राईफल्स, 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार बिन्दर सिंह (जेसी-580238एन), जैक राईफल्स, 01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार जोगिन्द्र सिंह (जेसी-580242एन), जैक राईफल्स, 01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार सुखदेव राज (जेसी-580173एल), जैक राईफल्स, 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार अब्दुल अजिज (जेसी-580202डब्ल्यू), जैक राईफल्स, 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार रुलदू राम शर्मा (जेसी-580223एल), जैक राईफल्स, 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार परभात सिंह (जेसी-580227एफ), जैक राईफल्स, 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार बेसर सिंह (जेसी-580235ए), जैक राईफल्स, 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार कुशल सिंह (जेसी-580236एच), जैक राईफल्स, 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार सरबजीत सिंह (जेसी-580237एल), जैक राईफल्स, 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार रनजीत सिंह (जेसी-580249ए), जैक राईफल्स, 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार पुरन सिंह (जेसी-580247पी), जैक राईफल्स, 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार कमलेश कुमार (जेसी-580276के), जैक राईफल्स, 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार लेख राज (जेसी-580407के), जैक राईफल्स, 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार विनोद कुमार (जेसी-580438के), जैक राईफल्स,
01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार राज मल (जेसी-580252ए), जैक राईफल्स, 01 फरवरी
2009

सूबेदार लिपिक (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार लिपिक भावेश कुमार (जेसी-580152पी), जैक राईफल्स,
01 दिसम्बर 2008

सूबेदार मेजर (जीडी) के रैंक में

सूबेदार सोबा राम (जेसी-579364एन), जैक राईफल्स, 01 नवम्बर
2008

सूबेदार जगदीश चन्द (जेसी-579404के), जैक राईफल्स, 01 दिसम्बर
2008

सूबेदार मोहम्मद रजाक (जेसी-579351डब्ल्यू), जैक राईफल्स,
01 जनवरी 2009

सूबेदार (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार रंजीत सिंह (जेसी-580210एन), जैक राईफल्स,
13 मई 2008

नायब सूबेदार भागदिन (जेसी-580400ए), जैक राईफल्स, 01 अगस्त
2008

नायब सूबेदार अमरजीत सिंह (जेसी-580214के), जैक राईफल्स,
03 अगस्त 2008

नायब सूबेदार रविन्द्र सिंह (जेसी-580286एन), जैक राईफल्स,
03 अगस्त 2008

नायब सूबेदार हेम राज (जेसी-580193एल), जैक राईफल्स,
01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार बद्री दास (जेसी-580295पी), जैक राईफल्स,
01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार मोहम्मद निशाल खान (जेसी-580321एल), जैक
राईफल्स, 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार गोपाल सिंह (जेसी-580168ए), जैक राईफल्स,
01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार बिरबल (जेसी-580217एक्स), जैक राईफल्स,
01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार रणधीर सिंह पुनिया (जेसी-580351एच), जैक राईफल्स,
01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार चैन सिंह (जेसी-580171ए), जैक राईफल्स, 01 दिसम्बर
2008

नायब सूबेदार गिरधारी लाल (जेसी-580221ए), जैक राईफल्स,
01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार तिलक राज (जेसी-580234एक्स), जैक राईफल्स,
01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार तरसेम लाल (जेसी-580311एफ), जैक राईफल्स,
01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार बलकार चन्द (जेसी-580375एम), जैक राईफल्स,
01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार उमेश खड्गा (जेसी-580398एन), जैक राईफल्स,
01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार संतोष कुमार (जेसी-580402एल), जैक राईफल्स,
01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार हरबन्स सिंह (जेसी-580429एच), जैक राईफल्स,
01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार जगतार सिंह (जेसी-580457पी), जैक राईफल्स,
01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार अजय कुमार (जेसी-580397एल), जैक राईफल्स,
10 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार मोहिन्द्र सिंह (जेसी-580215पी), जैक राईफल्स,
01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार अब्दुल क्यूम (जेसी-580219एच), जैक राईफल्स,
01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार करन सिंह (जेसी-580352एल), जैक राईफल्स,
01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार दिलावर सिंह (जेसी-580371डब्ल्यू), जैक राईफल्स,
01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार करनैल सिंह (जेसी-580426पी), जैक राईफल्स,
01 जनवरी 2009

सूबेदार मेजर (जीडी) के रैंक में

सूबेदार विप्रेन कुमार (जेसी-579439ए), जैक राईफल्स,
22 नवम्बर 2008

सूबेदार लिपिक अजमेर चन्द कटोच (जेसी-579533के),
जैक राईफल्स, 01 जनवरी 2009

सूबेदार कृष्ण चन्द (जेसी-579470एम), जैक राईफल्स, 01 मार्च
2009

सूबेदार (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार कमलेश कुमार ठाकुर (जेसी-580222एच),
जैक राईफल्स, 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार मंगल सिंह (जेसी-580243वाई), जैक राईफल्स,
01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार देविन्द्र सिंह (जेसी-580381एच), जैक राईफल्स,
01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार प्रेम लाल (जेसी-580376पी), जैक राईफल्स, 01 मार्च
2008

नायब सूबेदार गूरमेश सिंह (जेसी-580230एफ), जैक राईफल्स,
01 जुलाई 2008

नायब सूबेदार जगत सिंह (जेसी-580273डब्ल्यू), जैक राईफल्स,
01 अगस्त 2008

नायब सूबेदार मोहम्मद क्यूम (जेसी-580380एक्स), जैक राईफल्स,
01 अगस्त 2008

नायब सूबेदार मोहन सिंह (जेसी-580190एल), जैक राईफल्स,
24 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार कमलेश चन्द शर्मा (जेसी-580308एफ), जैक राईफल्स,
01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-580287डब्ल्यू), जैक राईफल्स,
01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार जंगु राम (जेसी-580197पी), जैक राईफल्स, 01 दिसम्बर
2008

नायब सूबेदार राजवीर छोट (जेसी-580322एन), जैक राईफल्स,
01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार कृष्ण कुमार (जेसी-580416एल), जैक राईफल्स,
01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार सतीश चन्द (जेसी-580409पी), जैक राईफल्स,
01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार हरि प्रसाद शर्मा (जेसी-580034एफ), जैक राईफल्स,
01 फरवरी 2009

नायब सूबेदार माधो राम (जेसी-580354डब्ल्यू), जैक राईफल्स,
01 फरवरी 2009

नायब सूबेदार कशमीर सिंह (जेसी-580384एन), जैक राईफल्स,
01 फरवरी 2009

नायब सूबेदार रत्न लाल (जेसी-580387एफ), जैक राईफल्स,
01 फरवरी 2009

नायब सूबेदार बेनि चंद (जेसी-580399डब्ल्यू), जैक राईफल्स,
01 फरवरी 2009

नायब सूबेदार हरजिन्द सिंह (जेसी-580417एन), जैक राईफल्स,
01 फरवरी 2009

नायब सूबेदार नन्द लाल (जेसी-580279एक्स), जैक राईफल्स,
01 मार्च 2009

9 जी आर

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार विष्णु बहादुर छेत्री (जेसी-629593एक्स), 22 नवम्बर 2008/
26 अक्टूबर 2008 *

सूबेदार संजय पुन (जेसी-629485एन), 08 सितम्बर 2008/
01 सितम्बर 2008 *

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना
ज्येष्ठता दी जाएगी)

3 जी आर

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार चन्द्र बहादुर थापा (जेसी-607445एम), 29 फरवरी 2008/
01 फरवरी 2008 *

सूबेदार धन बहादुर राणा (जेसी-607460एफ), 29 फरवरी 2008/
01 फरवरी 2008 *

सूबेदार लिपिक भीम प्रसाद (जेसी-607135एफ), 16 दिसम्बर 2008/
01 सितम्बर 2008 *

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना
ज्येष्ठता दी जाएगी)

पंजाब रेजीमेंट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार रणजीत सिंह चंदेल (जेसी-429264एक्स), 01 फरवरी 2009

सूबेदार रैंक में

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-430108ए), 04 जनवरी 2009

नायब सूबेदार जगमोहन सिंह (जेसी-429961एक्स), 01 फरवरी 2009

नायब सूबेदार नसीब सिंह (जेसी-429958एक्स), 01 मार्च 2009

नायब सूबेदार तरसेम सिंह (जेसी-430034डब्ल्यू), 01 मार्च 2009

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार गुरचरणजीत सिंह (जेसी-428947वाई), 09 मार्च 2009

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार धूप सिंह (जेसी-430008पी), 16 फरवरी 2009

नायब सूबेदार कुलविन्दर सिंह (जेसी-429987एम), 03 मार्च 2009

नायब सूबेदार अवतार सिंह (जेसी-430262वाई), 01 मार्च 2009

डोगरा रेजीमेंट

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार रिसाल सिंह (जेसी-520002पी), 20 जनवरी 2009+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 मार्च 2007 से)

नायब सूबेदार रविन्द्र कुमार (जेसी-520241के), 15 अगस्त 2008+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 फरवरी 2008 से)

नायब सूबेदार स्वामी राम (जेसी-520351वाई), 01 जनवरी 2009+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2008 से)

नायब सूबेदार राकेश भारद्वाज (जेसी-520352एफ), 01 जनवरी 2009+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2008 से)

नायब सूबेदार तरसेम सिंह (जेसी-520345एल), 26 जनवरी 2009+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2008 से)

नायब सूबेदार मोहिन्द्र सिंह मनकोटिया (जेसी-520347डब्ल्यू),
25 फरवरी 2009+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2008 से)

नायब सूबेदार जोगिन्दर सिंह (जेसी-520376एल), 09 जनवरी 2009+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2008 से)

नायब सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद (जेसी-520414डब्ल्यू), 05 फरवरी 2009+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2008 से)

नायब सूबेदार शेर सिंह (जेसी-520430एन), 17 फरवरी 2009+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2008 से)

नायब सूबेदार शिव राज (जेसी-520436पी), 25 अक्टूबर 2008+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2008 से)

नायब सूबेदार अरविन्द कुमार (जेसी-520426एल), 14 फरवरी 2009+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2008 से)

नायब सूबेदार ओंकार चन्द (जेसी-520457एल), 23 फरवरी 2009+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2008 से)

नायब सूबेदार किशोर लाल (जेसी-520442एच), 20 फरवरी 2009+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2008 से)

नायब सूबेदार रमेश पाल (जेसी-520458एन), 04 मार्च 2009+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2008 से)

नायब सूबेदार ध्यान सिंह (जेसी-520451के), 14 फरवरी 2009+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2008 से)

नायब सूबेदार विजय कुमार, सेना मेडल (जेसी-520361एच),
10 फरवरी 2009+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2008 से)

नायब सूबेदार ठाकुर दास पाल (जेसी-520115एक्स), 27 अक्टूबर 2008+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 सितम्बर 2008 से)

नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-520463वाई), 23 जनवरी 2009+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से)

नायब सूबेदार कुलदीप सिंह चौहान (जेसी-520071एल), 16 फरवरी 2009+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2008 से)

नायब सूबेदार सुरेन्द्र कुमार (जेसी-520072एन), 25 जनवरी 2009+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2008 से)

सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार सुखवीर सिंह राठौर (जेसी-520222वाई), 11 फरवरी 2009+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से)

पंजाब रेजीमेंट

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार भूषण लाल (जेसी-429996एन), 01 जून 2008

नायब सूबेदार जय देव पाल सिंह (जेसी-430028एच), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार राजबीर सिंह (जेसी-429607एच), 01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार जगीर सिंह (जेसी-430000एच), 01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार रणजीत सिंह (जेसी-430102वाई), 01 जनवरी 2009

जाट रेजिमेंट

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार हरी राम रेप्सवाल (जेसी-489523वाई), 09 जुलाई 2006*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार नन्द कंवर (जेसी-489519डब्ल्यू), 25 नवम्बर 2006*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार रामफल (जेसी-489412एफ), 01 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार राजेश कुमार (जेसी-489509एम), 09 अक्टूबर 2006*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2006 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार जगदेव राम (जेसी-489444के), 09 जुलाई 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार बलराज सिंह (जेसी-489491एफ), 26 अगस्त 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार जय नारायण (जेसी-489593एक्स), 01 जुलाई 2007

नायब सूबेदार सुरेन्द्र पाल सिंह राठी (जेसी-489663एल), 01 जुलाई 2007

नायब सूबेदार बिजेन्द्र सिंह (जेसी-489650एन), 01 जुलाई 2007

नायब सूबेदार धर्मबीर सिंह (जेसी-489643एक्स), 01 जुलाई 2007

नायब सूबेदार विक्रम सिंह (जेसी-489780डब्ल्यू), 01 जुलाई 2007

नायब सूबेदार सोमवीर (जेसी-489721के), 01 जुलाई 2007

नायब सूबेदार धन सिंह (जेसी-489757एच), 01 जुलाई 2007

नायब सूबेदार लिखमा राम (जेसी-489797के), 01 जुलाई 2007

नायब सूबेदार प्रताप सिंह (जेसी-489611पी), 06 अगस्त 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार किशन लाल (जेसी-489575पी), 09 अक्टूबर 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार निहाल सिंह (जेसी-489617डब्ल्यू), 15 अगस्त 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार देव करन सिंह (जेसी-489680एल), 18 जनवरी 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार धोकल राम (जेसी-489709एच), 01 अगस्त 2007

नायब सूबेदार भूपेन्द्र सिंह (जेसी-489710एक्स), 01 अगस्त 2007

नायब सूबेदार सतेन्द्र सिंह सिवाच (जेसी-489758एल), 01 अगस्त 2007

नायब सूबेदार जयपाल सिंह (जेसी-489759एन), 01 अगस्त 2007

नायब सूबेदार प्रभू सिंह (जेसी-489738एक्स), 01 अगस्त 2007

नायब सूबेदार अर्जुन राम (जेसी-489774एच), 01 अगस्त 2007

नायब सूबेदार मनबीर सिंह (जेसी-489775एल), 01 अगस्त 2007

नायब सूबेदार राजवीर सिंह (जेसी-489825एल), 01 जून 2008

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार जय प्रकाश (जेसी-489681एच), 07 सितम्बर 2007

नायब सूबेदार नेम सिंह (जेसी-489420ए), 01 सितम्बर 2007

नायब सूबेदार हरेन्द्र सिंह (जेसी-489713एल), 01 सितम्बर 2007

नायब सूबेदार रणधीर सिंह (जेसी-489714एन), 01 सितम्बर 2007

नायब सूबेदार यशपाल सिंह (जेसी-489679डब्ल्यू), 10 अक्टूबर 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 सितम्बर 2007 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार जगवीर सिंह (जेसी-489421एच), 03 फरवरी 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार युद्यवीर सिंह (जेसी-489422एल), 01 अक्टूबर 2007

नायब सूबेदार दिलबाग सिंह (जेसी-489612एक्स), 01 अक्टूबर 2007

नायब सूबेदार धर्मवीर (जेसी-489613ए), 09 जनवरी 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार जयपाल (जेसी-489695एन), 01 अक्टूबर 2007

नायब सूबेदार रणजीत सिंह जाट (जेसी-489719एम), 01 अक्टूबर 2007

नायब सूबेदार सुभ करन सिंह (जेसी-489745एन), 01 अक्टूबर 2007

नायब सूबेदार रनवीर सिंह (जेसी-489783के), 01 अक्टूबर 2007

नायब सूबेदार सुभाष चन्द (जेसी-489915एम), 01 जून 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार राज कपूर (जेसी-489381एम), 01 मई 2007

नायब सूबेदार गुलाब सिंह (जेसी-489373एन), 01 मई 2007

नायब सूबेदार सुभय सिंह (जेसी-489501ए), 01 मई 2007

नायब सूबेदार राज पाल सिंह (जेसी-489602एन), 01 मई 2007

नायब सूबेदार सुमेर सिंह (जेसी-489671के), 17 अगस्त 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार कप्तान सिंह (जेसी-489693एच), 01 जून 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार रघुवीर सिंह (जेसी-489724एक्स), 01 जून 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार जैना राम (जेसी-489708ए), 13 जून 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार सरजीत सिंह (जेसी-489779एफ), 01 जून 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह (जेसी-489687पी), 22 अक्टूबर 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 मई 2007 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार वजीर सिंह (जेसी-489530पी), 24 जुलाई 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 मई 2007 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार राज पाल (जेसी-489592पी), 07 मई 2007

नायब सूबेदार कदम सिंह (जेसी-489562एक्स), 01 जून 2007

नायब सूबेदार बिजेन्द्र सिंह (जेसी-489547एच), 01 जून 2007

नायब सूबेदार बिजेन्द्र सिंह (जेसी-489548एल), 01 जून 2007

नायब सूबेदार नाथू राम डूडी (जेसी-489603डब्ल्यू), 01 जून 2007

नायब सूबेदार रमेश कुमार (जेसी-489664एम), 01 जून 2007

नायब सूबेदार बालू राम (जेसी-489665डब्ल्यू), 01 जून 2007

नायब सूबेदार बलवीर सिंह (जेसी-489675ए), 26 अगस्त 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2007 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार शिव पाल (जेसी-489694एल), 01 जून 2007

नायब सूबेदार विरेन्द्र सिंह (जेसी-489720एफ), 04 अगस्त 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2007 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार सुरेश कुमार पांगल (जेसी-489736एम), 01 जून 2007

नायब सूबेदार विजय कुमार (जेसी-489737पी), 05 जून 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2007 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार ब्रिजवीर सिंह तंवर (जेसी-489751एफ), 01 जून 2007

नायब सूबेदार कुंवर सिंह सिनसिनवार (जेसी-489766के), 05 नवम्बर 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2007 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार महेश चन्द (जेसी-489772एक्स), 22 नवम्बर 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 जून 2007 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार सरदार सिंह (जेसी-489433एक्स), 03 जून 2007
 नायब सूबेदार पूरन राम बाजया (जेसी-489684एफ), 03 जून 2007

सिख लाईट इन्फेन्ट्री

सूबेदार (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार माखन सिंह (जेसी-509234एन), 01 अप्रैल 2007
 नायब सूबेदार बलजिन्दर सिंह (जेसी-509068एल), 01 मई 2007
 नायब सूबेदार बलदेव सिंह (जेसी-509240एफ), 01 जून 2007
 नायब सूबेदार धीर सिंह (जेसी-509241के), 01 जून 2007
 नायब सूबेदार बहादुर सिंह (जेसी-509296एन), 01 जुलाई 2007
 नायब सूबेदार परमजीत सिंह (जेसी-509299एफ), 01 जुलाई 2007
 नायब सूबेदार जसमेल सिंह (जेसी-509141वाई), 01 अगस्त 2007
 नायब सूबेदार जसपाल सिंह (जेसी-509301एन), 01 अगस्त 2007
 नायब सूबेदार सुरिन्दर सिंह (जेसी-509307पी), 01 अगस्त 2007
 नायब सूबेदार पुरसोतम सिंह (जेसी-509125एफ), 01 नवम्बर 2007
 नायब सूबेदार चरन सिंह (जेसी-508728एल), 01 नवम्बर 2007
 नायब सूबेदार बलजीत सिंह (जेसी-509178ए), 01 नवम्बर 2007
 नायब सूबेदार सुखवीर सिंह (जेसी-509126के), 01 नवम्बर 2007
 नायब सूबेदार दलबारा सिंह (जेसी-509127एम), 01 दिसम्बर 2007
 नायब सूबेदार दर्शन सिंह (जेसी-509130एम), 01 दिसम्बर 2007
 नायब सूबेदार जगपाल सिंह (जेसी-509134एच), 01 दिसम्बर 2007
 नायब सूबेदार जगतार सिंह (जेसी-509152एल), 01 जनवरी 2008
 नायब सूबेदार सुरजीत सिंह दुलची (जेसी-509204डब्ल्यू), 01 जनवरी 2008

2008

नायब सूबेदार जगतार सिंह (जेसी-509275एक्स), 01 जनवरी 2008
 नायब सूबेदार दर्शन सिंह (जेसी-509277एच), 01 जनवरी 2008
 नायब सूबेदार दारा सिंह (जेसी-509260पी), 01 जनवरी 2008
 नायब सूबेदार लाभ सिंह (जेसी-509261एक्स), 01 जनवरी 2008
 नायब सूबेदार छिन्दरपाल सिंह (जेसी-509199डब्ल्यू), 01 जनवरी 2008

2008

नायब सूबेदार पिरथी सिंह (जेसी-509112के), 01 फरवरी 2008
 नायब सूबेदार मोहिन्दर सिंह (जेसी-509180एक्स), 01 मार्च 2008
 नायब सूबेदार मनजीत सिंह (जेसी-509300एल), 01 मार्च 2008
 नायब सूबेदार मुख्तार सिंह (जेसी-509202एल), 01 मार्च 2008
 नायब सूबेदार सिन्दर सिंह (जेसी-509206एफ), 01 मार्च 2008
 नायब सूबेदार नवीन्दर सिंह (जेसी-509330एच), 01 मार्च 2008

नायब सूबेदार स्वर्ण सिंह (जेसी-509324पी), 01 अप्रैल 2008
 नायब सूबेदार हरनेक सिंह (जेसी-509264एल), 01 अप्रैल 2008
 नायब सूबेदार हीरा सिंह (जेसी-509336के), 01 अप्रैल 2008
 नायब सूबेदार हरमेश सिंह (जेसी-509327एच), 01 अप्रैल 2008
 नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-509278एल), 01 अप्रैल 2008
 नायब सूबेदार गुरमीत सिंह (जेसी-509128पी), 01 अप्रैल 2008
 नायब सूबेदार बलजीत सिंह (जेसी-509353के), 01 मई 2008
 नायब सूबेदार बलविन्दर सिंह (जेसी-509379वाई), 01 जून 2008
 नायब सूबेदार करम सिंह (जेसी-509380एन), 01 जून 2008
 नायब सूबेदार बलवीर सिंह (जेसी-509397एफ), 01 जून 2008
 नायब सूबेदार सतनाम सिंह (जेसी-509398के), 01 जून 2008
 नायब सूबेदार जगीर सिंह (जेसी-509406एक्स), 01 जून 2008
 नायब सूबेदार लखा सिंह (जेसी-509417के), 01 जून 2008
 नायब सूबेदार रनधीर सिंह (जेसी-509272पी), 01 जून 2008
 नायब सूबेदार सुरजीत सिंह (जेसी-509399एम), 01 जून 2008
 नायब सूबेदार दिलबाग सिंह (जेसी-509400डब्ल्यू), 01 जून 2008
 नायब सूबेदार बलवीर सिंह (जेसी-509401वाई), 01 जून 2008
 नायब सूबेदार गुरतेज सिंह (जेसी-509457एल), 01 जुलाई 2008
 नायब सूबेदार मनजीत सिंह (जेसी-509460एल), 01 जून 2008
 नायब सूबेदार धरमपाल सिंह (जेसी-509418एन), 01 जुलाई 2008
 नायब सूबेदार नच्छतर सिंह (जेसी-509421एम), 01 जुलाई 2008
 नायब सूबेदार नाजर सिंह (जेसी-509107वाई), 01 अगस्त 2008
 नायब सूबेदार तरलोचन सिंह (जेसी-509118एल), 01 अगस्त 2008
 नायब सूबेदार स्वर्ण सिंह (जेसी-509422पी), 01 अगस्त 2008
 नायब सूबेदार अजमेर सिंह (जेसी-509212पी), 01 अगस्त 2008
 नायब सूबेदार जगतार सिंह (जेसी-509119एन), 01 सितम्बर 2008
 नायब सूबेदार सुरिन्दर सिंह (जेसी-509230एक्स), 01 सितम्बर 2008
 नायब सूबेदार दलजीत सिंह (जेसी-509139एफ), 01 सितम्बर 2008
 नायब सूबेदार दलीप सिंह (जेसी-509423एक्स), 01 सितम्बर 2008
 नायब सूबेदार जगदीश सिंह (जेसी-509431डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2008
 नायब सूबेदार सुखजिन्दर सिंह (जेसी-509140डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2008
 नायब सूबेदार भजन सिंह (जेसी-509452एम), 01 अक्टूबर 2008
 नायब सूबेदार भीम सिंह (जेसी-509239एम), 01 नवम्बर 2008
 नायब सूबेदार देविन्दर सिंह (जेसी-509382वाई), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार सनतोख सिंह (जेसी-509453पी), 01 नवम्बर 2008	नायब सूबेदार तेज बहादुर छेत्री (जेसी-629799पी), 25 अक्तूबर 2008/01 अक्तूबर 2008 *
9जी आर	
सूबेदार के रैंक में	नायब सूबेदार जीत बहादुर छेत्री (जेसी-629714एच), 01 अक्तूबर 2008
रैंक, नाम, जेसी सं. और पदोन्नति की तिथि	नायब सूबेदार नर बहादुर छेत्री (जेसी-629720एफ), 19 दिसम्बर 2008/01 अक्तूबर 2008 *
नायब सूबेदार धन बहादुर छेत्री (जेसी-629703एफ), 01 नवम्बर 2007	नायब सूबेदार अनिल कुमार थापा (जेसी-629722एम), 19 दिसम्बर 2008/26 अक्तूबर 2008 *
नायब सूबेदार शेर बहादुर छेत्री (जेसी-629695एन), 04 दिसम्बर 2007/01 दिसम्बर 2007 *	नायब सूबेदार पुर्ना बहादुर घर्ती (जेसी-629730एल), 01 नवम्बर 2008
नायब सूबेदार धीर बहादुर रीमाल (जेसी-629704के), 01 दिसम्बर 2007	*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना ज्येष्ठता दी जाएगी)
नायब सूबेदार ओम बहादुर खान (जेसी-629706पी), 01 दिसम्बर 2007	नायब सूबेदार दिल बहादुर छेत्री (जेसी-629731एच), 01 नवम्बर 2008
नायब सूबेदार यम बहादुर खत्री (जेसी-629708ए), 01 दिसम्बर 2007	नायब सूबेदार अमित कुमार छेत्री (जेसी-629753एम), 02 नवम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 *
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना ज्येष्ठता दी जाएगी)	नायब सूबेदार योब राज छेत्री (जेसी-629763डब्ल्यू), 21 नवम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 *
नायब सूबेदार लेश बहादुर थापा (जेसी-629713एल), 01 फरवरी 2008	नायब सूबेदार जतिन्द्र बम मल्ला (जेसी-629733वाई), 17 दिसम्बर 2008/01 दिसम्बर 2008 *
नायब सूबेदार राज बहादुर थापा (जेसी-629769एक्स), 01 मार्च 2008	नायब सूबेदार ईमान सिंह थापा (जेसी-629764वाई), 22 दिसम्बर 2008/01 दिसम्बर 2008 *
नायब सूबेदार नंदा बीर छेत्री (जेसी-629716वाई), 25 मार्च 2008/01 मार्च 2008 *	*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना ज्येष्ठता दी जाएगी)
नायब सूबेदार खडका बहादुर थापा (जेसी-629717एफ), 01 मई 2008	नायब सूबेदार तिलक मल्ला (जेसी-629765एफ), 01 दिसम्बर 2008
नायब सूबेदार महेन्द्र बहादुर थापा (जेसी-629742ए), 26 मई 2008/01 मई 2008 *	नायब सूबेदार भरत छेत्री (जेसी-629791एच), 01 जनवरी 2009
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना ज्येष्ठता दी जाएगी)	नायब सूबेदार कमल धोज मल्ला (जेसी-629804एफ), 10 फरवरी 2009/01 जनवरी 2009 *
नायब सूबेदार बुद्धी बहादुर शाही (जेसी-629785पी), 14 जुलाई 2008/09 जून 2008	नायब सूबेदार भीम बहादुर छेत्री (जेसी-629747वाई), 01 फरवरी 2009
नायब सूबेदार रतना बहादुर शाही (जेसी-629786एक्स), 25 जुलाई 2008/01 जुलाई 2008 *	नायब सूबेदार दिल बहादुर छेत्री (जेसी-629756ए), 01 फरवरी 2009
नायब सूबेदार/लिपिक प्रताप सिंह (जेसी-629666वाई), 01 अगस्त 2008	*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना ज्येष्ठता दी जाएगी)
नायब सूबेदार/लिपिक सराडे हनुमन्त आत्माराम (जेसी-629566एन), 01 सितम्बर 2008	नायब सूबेदार आले देब बहादुर (जेसी-607609एक्स), 01 मार्च 2008
नायब सूबेदार राज बन्धु पंडेल (जेसी-629789एल), 01 सितम्बर 2008	नायब सूबेदार लीला बहादुर थापा (जेसी-607610एम), 01 मार्च 2008
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना ज्येष्ठता दी जाएगी)	नायब सूबेदार गणेश बहादुर राणा (जेसी-607621वाई), 04 मार्च 2008/01 मार्च 2008 *
	नायब सूबेदार राम बहादुर थापा (जेसी-607628एच), 01 मार्च 2008

- नायब सूबेदार पन्च बहादुर गुरूंग (जेसी-607629एल), 01 मार्च 2008
 *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना ज्येष्ठता दी जाएगी)
- नायब सूबेदार फलेन्द्र प्रसाद गुरूंग (जेसी-607639पी), 01 फरवरी 2008
- नायब सूबेदार मंत्री जंग गुरूंग (जेसी-607641एम), 27 फरवरी 2008/01 फरवरी 2008 *
- नायब सूबेदार तेज बहादुर राणा (जेसी-607682डब्ल्यू), 01 फरवरी 2008
- नायब सूबेदार/लिपिक नागेन्द्र यादव (जेसी-607583एन), 01 मार्च 2008
- नायब सूबेदार काजी राज थापा (जेसी-607598डब्ल्यू), 01 मार्च 2008
 *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना ज्येष्ठता दी जाएगी)
- नायब सूबेदार राम बहादुर थापा (जेसी-607631एच), 01 मार्च 2008
- नायब सूबेदार जस बहादुर गुरूंग (जेसी-607630ए), 01 अप्रैल 2008
- नायब सूबेदार हेम बहादुर थापा (जेसी-607643एक्स), 02 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008 *
- नायब सूबेदार देव बहादुर थापा (जेसी-607650एन), 01 अप्रैल 2008
- नायब सूबेदार जय बहादुर घले (जेसी-607651डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2008
 *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना ज्येष्ठता दी जाएगी)
- नायब सूबेदार बिमल कुमार रोका (जेसी-607698एफ), 26 अगस्त 2008/25 जून 2008 *
- नायब सूबेदार लोक बहादुर गुरूंग (जेसी-607709एच), 08 सितम्बर 2008/01 जुलाई 2008 *
- नायब सूबेदार मिन बहादुर भुजेल (जेसी-607660एक्स), 19 अक्टूबर 2008/07 जुलाई 2008 *
- नायब सूबेदार/लिपिक सुरेन्द्र सिंह पुन्डीर (जेसी-607636एफ), 14 अक्टूबर 2008/01 अगस्त 2008 *
- नायब सूबेदार बुद्धी बहादुर गुरूंग (जेसी-607665डब्ल्यू), 01 अगस्त 2008
 *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना ज्येष्ठता दी जाएगी)
- नायब सूबेदार नरेश कुमार गुरूंग (जेसी-607714एन), 15 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008 *
- नायब सूबेदार/लिपिक जय राम यादवा (जेसी-607646एल), 29 दिसम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 *
- नायब सूबेदार मन काजी गुरूंग (जेसी-607661ए), 19 अक्टूबर 2008/01 अक्टूबर 2008 *
- नायब सूबेदार गगन बहादुर आले (जेसी-607675ए), 01 अक्टूबर 2008
- नायब सूबेदार जगत बहादुर थापा (जेसी-607710एक्स), 01 अक्टूबर 2008
 *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना ज्येष्ठता दी जाएगी)
- नायब सूबेदार मन प्रसाद थापा (जेसी-607644ए), 03 नवम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 *
- नायब सूबेदार टीका राम राणा (जेसी-607711ए), 07 नवम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 *
- नायब सूबेदार दिल बहादुर थापा (जेसी-607632एल), 24 दिसम्बर 2008/29 नवम्बर 2008 *
- नायब सूबेदार फरसुराम श्रेष्ठा (जेसी-607653एफ), 01 जनवरी 2009/29 नवम्बर 2008 *
- नायब सूबेदार अजीत बहादुर पुन (जेसी-607662एच), 02 फरवरी 2009/01 जनवरी 2009 *
- नायब सूबेदार सन बहादुर थापा (जेसी-607680एल), 01 फरवरी 2009
 *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना ज्येष्ठता दी जाएगी)
- नायब सूबेदार तेज बहादुर गुरूंग (जेसी-607647एम), 14 जुलाई 2007/01 अक्टूबर 2006 *
- नायब सूबेदार टोप बहादुर थापा (जेसी-607590के), 01 दिसम्बर 2007
- नायब सूबेदार दुध मान गुरूंग (जेसी-607594ए), 05 फरवरी 2008/01 जनवरी 2008
- नायब सूबेदार पूर्णा बहादुर थापा (जेसी-607627ए), 25 फरवरी 2008/01 फरवरी 2008 *
- नायब सूबेदार रविन्द्र गुरूंग (जेसी-607640के), 01 फरवरी 2008
- नायब सूबेदार देव बहादुर पुन (जेसी-607638एम), 01 फरवरी 2008
 *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना ज्येष्ठता दी जाएगी)
- नायब सूबेदार राम बहादुर थापा (जेसी-607634डब्ल्यू), 30 जून 2008/25 मई 2008 *

नायब सूबेदार श्याम लाल थापा (जेसी-607635वाई), 30 जून 2008/
25 मई 2008 *

नायब सूबेदार राम बहादुर गुरुंग (जेसी-607685के), 30 जून 2008/
25 मई 2008 *

नायब सूबेदार कमल बहादुर पुन (जेसी-607652वाई), 05 नवम्बर
2008/01 जून 2008 *

नायब सूबेदार सुरेश बहादुर थापा (जेसी-607697वाई), 12 जुलाई
2008/01 जून 2008

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना ज्येष्ठता दी
जाएगी)

जे. राय चौधरी
अवर सचिव

सं. 377, दिनांक 26 मई 2009--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियाँ
करते हैं:--

नियमित सेना

तोपखाना रेजिमेन्ट

सब्टैलिव सूबेदार (जीडी) के पद में

नायब सूबेदार सहदेव सिंह (जेसी-269115एच) 22 अक्टूबर 2008/
01 सितम्बर 2008 *

नायब सूबेदार सुखविन्दर सिंह (जेसी-268859एफ) 09 अक्टूबर
2008/01 सितम्बर 2008 *

नायब सूबेदार नाजर सिंह (जेसी-269099डब्ल्यू) 23 अक्टूबर 2008/
01 सितम्बर 2008 *

नायब सूबेदार जोगिन्दर सिंह (जेसी-269542वाई) 05 सितम्बर
2008/01 सितम्बर 2008 *

नायब सूबेदार उमेद सिंह (जेसी-268908वाई) 28 दिसम्बर 2008/
01 सितम्बर 2008 *

नायब सूबेदार विरेन्द्र पाल (जेसी-269493एफ) 30 सितम्बर 2008/
01 सितम्बर 2008 *

नायब सूबेदार कृष्ण चन्दर भट्ट (जेसी-269899पी) 07 नवम्बर
2008/01 सितम्बर 2008 *

नायब सूबेदार राम नाथ (जेसी-269996एम) 29 अक्टूबर 2008/
01 सितम्बर 2008 *

नायब सूबेदार श्यामबीर सिंह (जेसी-270256के) 17 अक्टूबर 2008/
01 सितम्बर 2008 *

नायब सूबेदार महावीर यादव (जेसी-270380एल) 18 नवम्बर 2008/
01 अगस्त 2008 *

नायब सूबेदार कामेश्वर प्रसाद (जेसी-269867एम) 12 नवम्बर
2008/01 अगस्त 2008 *

नायब सूबेदार भाटकुले हरीहर यशवन्त (जेसी-269301वाई)
29 अक्टूबर 2008/31 अगस्त 2008 *

नायब सूबेदार गुरुदेव सिंह (जेसी-268969डब्ल्यू) 07 नवम्बर 2008/
31 अगस्त 2008 *

नायब सूबेदार रामेन्द्र सिंह (जेसी-270029के) 10 नवम्बर 2008/
31 अगस्त 2008 *

नायब सूबेदार रणवीर सिंह चौहान (जेसी-269512एफ) 11 नवम्बर
2008/01 अक्टूबर 2008 *

नायब सूबेदार पल्लवपारथी सायुल दास (जेसी-267905वाई) 22 नवम्बर
2008/01 अक्टूबर 2008 *

नायब सूबेदार ईश्वर सिंह (जेसी-268264के) 17 दिसम्बर 2008/
01 अक्टूबर 2008 *

नायब सूबेदार इन्द्रजीत दूबे (जेसी-268510के) 07 दिसम्बर 2008/
01 अक्टूबर 2008 *

नायब सूबेदार विजय कुमार राणा (जेसी-267040एक्स) 07 नवम्बर
2008/01 नवम्बर 2008 *

नायब सूबेदार महेश बाबू शर्मा (जेसी-267937एफ) 17 दिसम्बर
2008/01 नवम्बर 2008 *

नायब सूबेदार सोहन लाल (जेसी-269084एन) 03 दिसम्बर 2008/
01 नवम्बर 2008 *

नायब सूबेदार भगवान प्रसाद सिंह (जेसी-269660एम) 01 नवम्बर
2008

नायब सूबेदार सुभाष चन्द (जेसी-269956एल) 18 दिसम्बर 2008/
01 नवम्बर 2008 *

नायब सूबेदार बी भारती (जेसी-270734एच) 18 दिसम्बर 2008/
01 नवम्बर 2008 *

नायब सूबेदार बसवाराज बसवन्ताप्पा गौरी (जेसी-268110एक्स)
31 दिसम्बर 2008/01 दिसम्बर 2008 *

नायब सूबेदार विजय कुमार (जेसी-268111ए) 07 जनवरी 2009/
01 दिसम्बर 2008 *

नायब सूबेदार मोहम्मद इकबाल अली (जेसी-268363एम) 01 दिसम्बर
2008

नायब सूबेदार भंवर सिंह (जेसी-268518डब्ल्यू) 26 दिसम्बर 2008/
01 दिसम्बर 2008 *

नायब सूबेदार अनिल कुमार (जेसी-269163एच) 01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार दलीप चन्द (जेसी-268920ए) 17 दिसम्बर 2008/
01 दिसम्बर 2008 *

नायब सूबेदार सुरेश बाबू जी (जेसी-269157पी) 06 दिसम्बर 2008/
01 दिसम्बर 2008 *

नायब सूबेदार परषोत्तम सिंह (जेसी-269516एक्स) 02 दिसम्बर 2008/01 दिसम्बर 2008 *

नायब सूबेदार सत्यबीर सिंह (जेसी-269345डब्ल्यू) 01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार राजिन्दर कुमार (जेसी-269554एन) 05 दिसम्बर 2008/01 दिसम्बर 2008 *

नायब सूबेदार नवाब सिंह (जेसी-269504एच) 14 दिसम्बर 2008/01 दिसम्बर 2008 *

नायब सूबेदार राम परवेश पासवान (जेसी-269666एन) 01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार उल्लाहन्नन पी जे (जेसी-269761ए) 10 दिसम्बर 2008/01 दिसम्बर 2008 *

नायब सूबेदार बलराज (जेसी-270124डब्ल्यू) 21 जनवरी 2009/01 दिसम्बर 2008 *

*(ज्येष्ठता प्राप्त)

ए वी बगुर
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 378, दिनांक 27 मई 2009--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं:--

नियमित सेना

सेना शारीरिक प्रशिक्षण कोर और पदोन्नति दिनांक

सूबेदार जंगा बहादुर अले (जेसी-826147पी) 01 मई 2008

सूबेदार कमल सिंह (जेसी-826148एक्स) 13 जून 2008/01 जून 2008 *

सूबेदार चिंदामडा टी देवय्या (जेसी-826149ए) 21 जून 2008/01 जून 2008 *

सूबेदार मगन सिंह (जेसी-826151एक्स) 08 जुलाई 2008/01 जुलाई 2008 *

सूबेदार अशोक सिंह (जेसी-826152ए) 01 सितम्बर 2008

सूबेदार अरविंदाक्षन टी वी (जेसी-826150पी) 01 दिसम्बर 2008

सूबेदार हरबन्स लाल (जेसी-826153एच) 01 दिसम्बर 2008

सूबेदार राम सिंह (जेसी-826154एल) 01 मार्च 2009

सूबेदार मदन लाल शर्मा (जेसी-826155एन) 01 अप्रैल 2009

सूबेदार गुलाम मुरशिद (जेसी-826156डब्ल्यू) 01 अप्रैल 2009

*वरिष्ठता दिनांक

पी पी सिंह
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 379, दिनांक 27 मई 2009--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं:--

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

गढ़वाल राइफल्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार जगमोहन सिंह (सं. 4068562पी अब जेसी-530605वाई), 14 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 जुलाई 2008 से दी जाती है)

हवलदार उमेद सिंह, सेना मैडल (सं. 4068349पी अब जेसी-530606एफ), 04 फरवरी 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 अगस्त 2008 से दी जाती है)

हवलदार पंचम सिंह (सं. 4066027डब्ल्यू अब जेसी-530607के), 18 दिसम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 अगस्त 2008 से दी जाती है)

हवलदार रमेश चन्द्र (सं. 4068712ए अब जेसी-530608एम), 01 सितम्बर 2008

हवलदार नारायण सिंह (सं. 4070367डब्ल्यू अब जेसी-530609पी), 12 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

हवलदार मदन सिंह (सं. 4069860एक्स अब जेसी-530610के), 23 दिसम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार राम सिंह (सं. 4070379एल अब जेसी-530611एम), 05 दिसम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार माधो सिंह (सं. 4068382एम अब जेसी-530612पी), 28 जनवरी 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 नवम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार सुरेन्द्र लाल (सं. 4068136एफ अब जेसी-530613एक्स), 25 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 नवम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार भवान सिंह (सं. 4068662ए अब जेसी-530615एच),
01 दिसम्बर 2008

हवलदार यशवीर सिंह (सं. 4068381के अब जेसी-530616एल),
07 फरवरी 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार भरत सिंह नेगी (सं. 4067753एक्स अब जेसी-530617एन),
16 फरवरी 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार विनोद कुमार (सं. 4069164ए अब जेसी-530618डब्ल्यू),
28 जनवरी 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार मदन सिंह (सं. 4069208एम अब जेसी-530619वाई),
28 जनवरी 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार राजेन्द्र सिंह बिष्ट (सं. 4068844एन अब जेसी-
530620एन), 01 दिसम्बर 2008

हवलदार विनोद प्रसाद (सं. 4068808एच अब जेसी-530621डब्ल्यू),
01 दिसम्बर 2008

हवलदार हरी सिंह (सं. 4068417एक्स अब जेसी-530622वाई),
16 फरवरी 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 06 दिसम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार शंकरू (सं. 4068430एफ अब जेसी-530623एफ),
24 जनवरी 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 06 दिसम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार दयाल सिंह (सं. 4072303के अब जेसी-530624के),
13 फरवरी 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जाती है)

हवलदार अजीत सिंह, सेना मैडल (सं. 4068818एम अब जेसी-
530625एम), 09 फरवरी 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जाती है)

हवलदार विनोद कुमार (सं. 4068889एन अब जेसी-530626पी),
19 फरवरी 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जाती है)

हवलदार सुरेन्द्र सिंह रौतेला (सं. 13617801पी अब जेसी-
530627एक्स), 16 फरवरी 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जाती है)

हवलदार अवतार सिंह (सं. 4069535एक्स अब जेसी-530628ए),
06 फरवरी 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जाती है)

हवलदार महीपाल सिंह (सं. 4068374एन अब जेसी-530629एच),
06 फरवरी 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2009 से दी जाती है)

हवलदार चन्दन सिंह (सं. 4069443एल अब जेसी-530630एक्स),
13 फरवरी 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2009 से दी जाती है)

हवलदार ताजबर सिंह गुसाईं (सं. 4068917पी अब जेसी-530631ए),
01 फरवरी 2009

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) गोपाल दत्त ममगौड़ (सं. 4068740एम अब जेसी-
530614ए), 01 दिसम्बर 2008

बिहार रेजीमेन्ट

नायब सूबेदार (जीडी/लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) राजेश कुमार (सं. 4266940एन अब जेसी-
560149एन), 01 अगस्त 2008

हवलदार सुरिंद्र कुमार (सं. 4269966एन अब जेसी-560150एच),
26 फरवरी 2009/01 नवम्बर 2008 [ज्येष्ठता]×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार मुन्ना उराव (सं. 4270769एक्स अब जेसी-560151एल),
03 मार्च 2009/21 नवम्बर 2008 [ज्येष्ठता]×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 21 नवम्बर 2008 से दी जाती है)

कम्पनी हवलदार मेजर शिव शंकर प्रसाद यादव (सं. 4267491डब्ल्यू
अब जेसी-560152एन), 09 फरवरी 2009/21 नवम्बर 2008 [ज्येष्ठता]×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 21 नवम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार कुमार सतेंद्र नारायण सिंह (सं. 4267834एफ अब जेसी-
560153डब्ल्यू), 10 फरवरी 2009/21 नवम्बर 2008 [ज्येष्ठता]×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 21 नवम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार नवल किशोर मिश्रा (सं. 4265762के अब जेसी-560154वाई), 23 फरवरी 2009/10 फरवरी 2009 [ज्येष्ठता]×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 10 फरवरी 2009 से दी जाती है)

पंजाब रेजीमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार मनजीत सिंह (सं. 2478821एफ अब जेसी-430502एल), 01 मार्च 2009

हवलदार विजय कुमार (सं. 2480226डब्ल्यू अब जेसी-430503एन), 01 मार्च 2009

3 जी आर

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार निर्पा बहादुर बलाल (सं. 5245303ए अब जेसी-607765एफ), 01 फरवरी 2008

हवलदार टीका बहादुर थापा (सं. 5245802पी अब जेसी-607766के), 01 फरवरी 2008

हवलदार कृष्णा बहादुर गुरुंग (सं. 5246065एल अब जेसी-607767एम), 01 फरवरी 2008

हवलदार धन बहादुर मगर (सं. 5246236एम अब जेसी-607768पी), 01 फरवरी 2008

हवलदार धन बहादुर थापा (सं. 5246437एल अब जेसी-607769एक्स), 27 फरवरी 2008/01 फरवरी 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों के प्रभावित किये बिना ज्येष्ठता दी जायेगी)

हवलदार लिपिक प्रभात चन्द्र शर्मा (सं. 5245373वाई अब जेसी-607770एम), 01 मार्च 2008

हवलदार लिपिक शंकर दत्त (सं. 5245374एफ अब जेसी-607771पी), 01 मार्च 2008

हवलदार जीत बहादुर गुरुंग (सं. 5245304एच अब जेसी-607772एक्स), 01 मार्च 2008

हवलदार उदय बहादुर गुरुंग (सं. 5245306एन अब जेसी-607773ए), 01 मार्च 2008

हवलदार तुल बहादुर थापा (सं. 5245307डब्ल्यू अब जेसी-607774एच), 01 मार्च 2008

हवलदार राम बहादुर गाहा (सं. 5245746एफ अब जेसी-607775एल), 01 मार्च 2008

हवलदार अईता बहादुर पुन (सं. 5245747के अब जेसी-607776एन), 01 मार्च 2008

हवलदार देव बहादुर थापा (सं. 5245338डब्ल्यू अब जेसी-607777डब्ल्यू), 01 मार्च 2008

हवलदार राम बहादुर थापा (सं. 5246004एन अब जेसी-607778वाई), 01 मार्च 2008

हवलदार डम्बर बहादुर गुरुंग (सं. 5246269एक्स अब जेसी-607779एफ), 01 मार्च 2008

हवलदार लिपिक जोत सिंह सामंत (सं. 5245375के अब जेसी-607780डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2008

हवलदार गम बहादुर गुरुंग (सं. 5245718पी अब जेसी-607781वाई), 01 अप्रैल 2008

हवलदार मोहन बहादुर गुरुंग (सं. 5246305एक्स अब जेसी-607782एफ), 01 अप्रैल 2008

हवलदार पुर्ना बहादुर सारू (सं. 5246350के अब जेसी-607783के), 01 अप्रैल 2008

हवलदार चन्द्रा बहादुर थापा (सं. 5245927एम अब जेसी-607784एम), 01 अप्रैल 2008

हवलदार ओम बहादुर (सं. 5245292वाई अब जेसी-607785पी), 01 मई 2008

हवलदार रतना बहादुर पुन (सं. 5245838एन अब जेसी-607786एक्स), 30 जून 2008/25 मई 2008 *

हवलदार लोक बहादुर थापा (सं. 5245870एच अब जेसी-607787ए), 30 जून 2008/25 मई 2008 *

हवलदार धुब्रा बहादुर गुरुंग (सं. 5245343एफ अब जेसी-607788एच), 01 जुलाई 2008/01 जून 2008 *

हवलदार पदम बहादुर थापा (सं. 5245349एच अब जेसी-607789एल), 15 अगस्त 2008/25 जून 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों के प्रभावित किये बिना ज्येष्ठता दी जायेगी)

हवलदार लिपिक पवन कुमार शर्मा (सं. 5245377पी अब जेसी-607790ए), 01 अगस्त 2008

हवलदार पुर्ना बहादुर राणा (सं. 5245861एफ अब जेसी-607791एच), 19 अक्टूबर 2008/01 जून 2008 *

हवलदार र्क बहादुर क्षेत्री (सं. 5245381एक्स अब जेसी-607792एल), 03 नवम्बर 2008/01 जुलाई 2008 *

हवलदार बहादुर शाही ठकुरी (सं. 5245439के अब जेसी-607793एन), 01 सितम्बर 2008/01 अगस्त 2008 *

हवलदार बिल बहादुर गुरुंग (सं. 5246510वाई अब जेसी-607794डब्ल्यू), 15 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों के प्रभावित किये बिना ज्येष्ठता दी जायेगी)

हवलदार लक्ष्मण गुरुंग (सं. 5245489पी अब जेसी-607795वाई), 19 अक्टूबर/13 सितम्बर 2008 *

हवलदार भुवन बहादुर खत्री (सं. 5245440वाई अब जेसी-607796एफ), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार नर बहादुर गुरुंग (सं. 5245885एल अब जेसी-607797के),
19 अक्टूबर 2008/01 अक्टूबर 2008 *

हवलदार (लिपिक) रवि भूषण कुमार (सं. 5245390वाई अब
जेसी-607798एम), 11 दिसम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 *

हवलदार (म्युजिशियन) राम बहादुर थापा (सं. 5245611ए अब
जेसी-607799पी), 01 अक्टूबर 2008

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों के प्रभावित किए बिना
ज्येष्ठता दी जाएगी)

हवलदार कर्ना बहादुर कुटवल छेत्री (सं. 5245448एल अब जेसी-
607800वाई), 03 नवम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 *

हवलदार भीम बहादुर जी सी (सं. 5246056के अब जेसी-607801एफ),
03 नवम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 *

हवलदार भक्ता बहादुर गुरुंग (सं. 5246038एफ अब जेसी-607802के),
03 नवम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 *

हवलदार बीर बहादुर थापा (सं. 5246254पी अब जेसी-607803एम),
28 जनवरी 2009/29 नवम्बर 2008 *

हवलदार हित बहादुर गुरुंग (सं. 5246562पी अब जेसी-607805एक्स),
01 फरवरी 2009

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों के प्रभावित किए बिना
ज्येष्ठता दी जाएगी)

9 जी आर

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार लाल प्रसाद अधिकारी (सं. 5846434पी अब जेसी-
629871ए), 01 मई 2008

हवलदार (लिपिक) इन्द्र मोहन स्वरगियारी (सं. 5846452एक्स अब
जेसी-629872एच), 01 अगस्त 2008

हवलदार पदम बहादुर सुयाल (सं. 5846689पी अब जेसी-
629873एल), 01 सितम्बर 2008

हवलदार (लिपिक) गोविंद प्रकाश मिश्रा (सं. 5846393डब्ल्यू अब
जेसी-629874एन), 18 नवम्बर 2008/27 सितम्बर 2008 *

हवलदार भीम बहादुर भण्डारी (सं. 5846853एम अब जेसी-
629875डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2008

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों के प्रभावित किए बिना
ज्येष्ठता दी जाएगी)

हवलदार परशु राम श्रेष्ठा (सं. 5845358एन अब जेसी-629847के),
21 फरवरी 2008/01 दिसम्बर 2007 *

हवलदार भविन्द्रा विक्रम शाही (सं. 5846667डब्ल्यू अब जेसी-
629867एक्स), 01 फरवरी 2008

हवलदार (लिपिक) जय सिंह (सं. 5846292एच अब जेसी-
629868ए), 03 मार्च 2008/01 मार्च 2008 *

हवलदार घन बहादुर खत्री (सं. 5846095ए अब जेसी-629869एच),
29 मार्च 2008/01 मार्च 2008

हवलदार तोरन बहादुर थापा (सं. 5846558के अब जेसी-
629870एक्स), 01 मार्च 2008

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों के प्रभावित किए बिना
ज्येष्ठता दी जाएगी)

हवलदार टिकेन्द्र रायमाझी (सं. 5847052एक्स अब जेसी-
629876वाई), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार (लिपिक) सुरेंद्र कुमार (सं. 5846492एफ अब जेसी-
629877एफ), 22 नवम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 *

हवलदार राजेश कुमार छेत्री (सं. 5846083एल अब जेसी-629878के),
01 नवम्बर 2008

हवलदार बिष्णु बहादुर खण्डेल (सं. 5846087एफ अब जेसी-
629879एम), 01 नवम्बर 2008

हवलदार हरी बहादुर केसी (सं. 5846090एफ अब जेसी-
629880एफ), 01 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों के प्रभावित किए बिना
ज्येष्ठता दी जाएगी)

हवलदार भुवन बहादुर थापा (सं. 5846018एल अब जेसी-629881के),
18 दिसम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 *

हवलदार यम बहादुर भण्डारी (सं. 5846248वाई अब जेसी-
629882एम), 19 दिसम्बर 2008/26 अक्टूबर 2008 *

हवलदार (म्युजिशियन) रुक प्रसाद गुरुंग (सं. 5845511एम अब
जेसी-629883पी), 18 दिसम्बर 2008/01 दिसम्बर 2008 *

हवलदार मुक्ति बहादुर केसी (सं. 5846089एम अब जेसी-
629884एक्स), 17 दिसम्बर 2008/01 दिसम्बर 2008 *

हवलदार भरत बहादुर थापा (सं. 5846212ए अब जेसी-629885ए),
01 दिसम्बर 2008

हवलदार शेर बहादुर घर्ती क्षेत्री (सं. 5846217वाई अब जेसी-
629886एच), 01 दिसम्बर 2008

हवलदार गुंगा बहादुर कुनवर (सं. 5846450एम अब जेसी-
629887एल), 10 जनवरी 2009/10 दिसम्बर 2008 *

हवलदार श्री पुर्ना बहादुर थापा (सं. 5846263एन अब जेसी-
629889डब्ल्यू), 01 जनवरी 2009

हवलदार भगवान मल्ला (सं. 5846991एन अब जेसी-629890एल),
01 जनवरी 2009

हवलदार दिल बहादुर थापा (सं. 5846486एल अब जेसी-
629892डब्ल्यू), 01 फरवरी 2009

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों के प्रभावित किए बिना
ज्येष्ठता दी जाएगी)

पंजाब रेजीमेंट

थल सेना विभाग

नायब सूबेदार धार्मिक शिक्षक पंडित के रैंक में

नायब सूबेदार शिक्षक पंडित बिनोद कुमार तिवारी (जेसी-430365एक्स), 06 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार शिक्षक पंडित महेश कुमार शुक्ला (जेसी-430413एम), 06 सितम्बर 2008

जे रॉय चौधरी

अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 380, दिनांक 27 मई 2009---राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नियुक्तियाँ/पदोन्नतियाँ करते हैं :--

नियमित सेना

सेना आयुद्ध कोर

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार अम्युनिशन तकनीशियन गौतम बरुआ (सं. 6930588एच अब जेसी-728427एम), 01 जुलाई 2008

हवलदार अम्युनिशन तकनीशियन मोहन सिंह (सं. 6931236एक्स अब जेसी-728428पी), 01 जनवरी 2009

हवलदार अम्युनिशन तकनीशियन राजू के एन (सं. 6930871डब्ल्यू अब जेसी-728429एक्स), 01 अप्रैल 2009

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल राज कुमार (सं. 6922645के अब जेसी-728430एम), 01 जुलाई 2008

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल ए के सिंह (सं. 6922802एल अब जेसी-728431पी), 01 सितम्बर 2008

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल एम एस रावैर (सं. 6923475एक्स अब जेसी-728432एक्स), 01 मार्च 2009

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल राजाराम (सं. 6923744वाई अब जेसी-728433ए), 01 मई 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल राज कुमार (सं. 6923755एल अब जेसी-728434एच), 01 मई 2009

हवलदार एसकेटीजीएस एंड सी कृशला राम (सं. 6922042एन अब जेसी-728435एल), 01 फरवरी 2008

हवलदार एसकेटीजीएस एंड सी जप्नेस्वर खूंटिया (सं. 6922060डब्ल्यू अब जेसी-728436एन), 01 मार्च 2008

हवलदार एसकेटीएमटी प्रदीप कुमार (सं. 6922186डब्ल्यू अब जेसी-728437डब्ल्यू), 01 मई 2008

हवलदार एसकेटीजीएस एंड सी अरविंद कुमार (सं. 6922349वाई अब जेसी-728438वाई), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार एसकेटीजीएस एंड सी, एस आर सिंह (सं. 6923265एक्स अब जेसी-728439एफ), 01 मार्च 2009

हवलदार एसकेटी सिग्नल एल साहू (सं. 6923268एल अब जेसी-728440डब्ल्यू), 01 मार्च 2009

हवलदार एसकेटी सिग्नल मोहन कुमार ए के (सं. 6923287डब्ल्यू अब जेसी-728441वाई), 01 मार्च 2009

हवलदार एसकेटी सिग्नल बाबू पिल्लै वी (सं. 6923291वाई अब जेसी-728442एफ), 16 अप्रैल 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जाएगी)

हवलदार एसकेटीजीएस एंड सी, एच एस दास (सं. 6923331पी अब जेसी-728443के), 01 मार्च 2009

हवलदार एसकेटी सिग्नल बलप्पा कूत्रे (सं. 6923348एच अब जेसी-728444एम), 03 अप्रैल 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जाएगी)

हवलदार एसकेटीएमटी वेद प्रकाश (सं. 6923538पी अब जेसी-728445पी), 01 अप्रैल 2009

हवलदार एसकेटीएमटी, एन एस रावैर (सं. 6923547डब्ल्यू अब जेसी-728446एक्स), 01 अप्रैल 2009

हवलदार एसकेटीएमटी, आर एस चौधरी (सं. 6923548वाई अब जेसी-728447ए), 02 अप्रैल 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जाएगी)

हवलदार एसकेटी वेपन एल एस गौड (सं. 6923552एफ अब जेसी-728448एच), 15 अप्रैल 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जाएगी)

हवलदार एसकेटी वेपन बी एल चौधरी (सं. 6923556एक्स अब जेसी-728449एल), 01 अप्रैल 2009

हवलदार एसकेटीजीएस एंड सी, आर एल गेहलोत (सं. 6923560ए अब जेसी-728450ए), 01 अप्रैल 2009

हवलदार एसकेटीजीएस एंड सी, डी आर चौधरी (सं. 6923563एन अब जेसी-728451एच), 05 अप्रैल 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जाएगी)

हवलदार एसकेटीएमटी, बी आर के जगन्नाथ (सं. 6922457एच अब जेसी-728452एल), 24 अप्रैल 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 अप्रैल 2009 से दी जाएगी)

हवलदार ड्राईवर एमटी, पी के साहा (सं. 6922146पी अब जेसी-728453एन), 27 फरवरी 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाएगी)

नन्द किशोर कश्मीरा

अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 11th July 2009

ARMY BRANCH

No. 374, dated 26th May 2009—The President is pleased to make the following appointment:—

REGULAR ARMY

SPECIAL LIST

INFANTRY

THE MARATHA LI

To be Nb Sub (RT)

Mohd Riyazuddin (JC-459884H), 15 Nov 2008

SPECIAL LIST

THE GRENADIERS

To be Nb Sub (Religious Teacher)

Vishwa Nath Mishra (JC-450493W), 06 Sep 2008

Prem.Shankar Dwivedi (JC-450494Y), 06 Sep 2008

J. ROY CHOWDHURY

Under Secy.

No. 375, dated 26th May 2009—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Maj to be Lt Col

IC No., Name, Arm, Subs Lt Col wef

37876 Nirmal Singh, Army AVN, 16 Dec 2004

45103 Arvind Joshi, AOC, 16 Dec 2004

52188 Binoj Koshy, Inf, 12 Jun 2006

53246 Rajeev Kumar Sharma, Arty, 10 Dec 2007

53309 Devesh Dua, Engrs, 10 Dec 2007

53662 Sanjay Shandil, AC, 10 Jun 2008

53697 Sameer Bakshi, Inf, 10 Jun 2008

53711 Y Vijaya Kumar, Inf, 10 Jun 2008

53733 Sanjay Sinha, Inf, 10 Jun 2008

53741 Pankaj Beniwal, Arty, 10 Jun 2008

53744 Arvind Mohan Singh, Int, 10 Jun 2008

53783 Amitabh Kumar, AC, 10 Jun 2008

53794 Kushal Kar, Arty, 10 Jun 2008

53807 Sundeep Dhar, Engrs, 10 Jun 2008

53957 Deepak Rawal, Army AVN, 09 Dec 2008

53965 Anup Kumar Mundhra, Arty, 09 Dec 2008

53989 Rohit Kushwaha, Arty, 09 Dec 2008

54127 Shankar Podder, AOC, 09 Dec 2008

54227 Sarang Prakash Pande, AD Arty, 09 Dec 2008

54233 Mohor Ghosh, ASC, 09 Dec 2008

54234 Ashish Kumar, Inf, 09 Dec 2008

55139 Ram Krishna Das Kapur, ASC, 03 Nov 2007

55169 K Annesudhan, AOC, 03 Nov 2007

55341 Pradeep Kumar Singh, AD Arty, 11 Nov 2008

55357 Deepak Gupta, Army AVN, 11 Nov 2008

55406 Raminder Singh Wachar, ASC, 11 Nov 2008

57324 Doifode Mohan Rajaram, EME, 11 Jun 2008

57723 Yogesh Kumar Gandhi, Engrs, 10 Dec 2008

55241 Ravinder Sharma, ASC, 18 Apr 2008

55340 Lalit Sharma, Inf, 11 Nov 2008

53509 Rahul Sareen, AOC, 10 Jun 2008

53163 Arun Uniyal, Arty, 10 Dec 2007

53934 Yashdeep Sangwan, Inf, 09 Dec 2008

53939 Himanshu Kataria, Inf, 09 Dec 2008

53990 Avinash Nathan, Int, 09 Dec 2008

53994 Surender Chauhan, Mech Inf, 09 Dec 2008

SHORT SERVICE COMMISSION (MEN)

Maj to be Lt Col

SS No., Name, Arm, Dos, Course, Revised date of Seniority for Promotion, Lt Col wef

36295 Kaushal N Thakur, Arty, 11 Mar 95, SSC-59 (NT), 11 Nov 1995, 11 Nov 2008

PERMANENT COMMISSION

Capt to be Major

IC No., Name, Arm, Subs Maj wef

59740 Sandeep Kumar, ASC, 10 Jun 2006

62163 Raman Jha, Inf, 08 Jun 2008

62537 Jasbir Singh, AAD, 10 Dec 2008

62582 Nikhil Suhas Phadke, Inf, 10 Dec 2008

62666 Denu Aprem Thomas, Inf, 10 Dec 2008

62667 Mukesh Kumar, Arty, 10 Dec 2008

62681 Ajay Sahrawat, AAD, 10 Dec 2008

IC No., Name, Arms, Subs Maj wef

62708 Rajat Kumar, Arty, 10 Dec 2008

62757 Sudeep Manheri, AOC, 10 Dec 2008

62763 Praveen Sharma, Int, 10 Dec 2008

62864 Phalke Sachin Mohan, Arty, 10 Dec 2008

62907 Anurag Chaturvedi, Arty, 10 Dec 2008

62927 Satish Mehra, AAD, 10 Dec 2008

65536 Prashant Jotiba Mane, AC, 02 Nov 2008

65572 Arindam Bardhan, Inf, 02 Nov 2008

65619 Paishal Manocha, Inf, 02 Nov 2008

65627 Divya Mani Shukla, Engrs, 02 Feb 2009

SHORT SERVICE COMMISSION (WSES)

Capt to be Maj

WS-No., Name, Arm, Course, Revised date of Seniority for Promotion, Date of Sub Major

WS-00641 Manul Singh, ASC, WS-19 (NT), 02 Mar 2003, 02 Mar 2009

WS-00644 Kavita Rajput, Sigs, WS-19 (NT), 02 Mar 2003, 02 Mar 2009

WS-00646 Rashmi Mishra Int, WS-19 (NT), 02 Mar 2003, 02 Mar 2009

WS-00651 Geetanjali Bhatt, Sigs, WS-19 (NT), 02 Mar 2003, 02 Mar 2009

WS-00663 Lourembam Reena Devi, Sigs, WS-19 (NT), 02 Mar 2003, 02 Mar 2009

WS-00664 KM Manisha Tiwari, EME, WS-19 (NT), 02 Mar 2003, 02 Mar 2009

WS-00668 Suman, EME, WS-19 (NT), 02 Mar 2003, 02 Mar 2009

WS-00672 Pallavi Sinha, Sigs, WS-19 (NT), 02 Mar 2003, 02 Mar 2009

WS-00673 Pooja Gupta, AOC, WS-19 (NT), 02 Mar 2003, 02 Mar 2009

WS-00676 Annie Varghese, ASC, WS-19 (NT), 02 Mar 2003, 02 Mar 2009

WS-00698 Ishani Maitra, AEC, WS-20 (NT), 07 Mar 2003, 07 Mar 2009

WS-00927 Neharika Bhardwaj, AAD, WS-24 (T), 17 Mar 2003, 17 Mar 2009

WS-00930 Rishita Acharya, EME, WS-24 (T), 17 Mar 2003, 17 Mar 2009

WS-00951 Meenal Chauhan, Engrs, WS-24 (T), 17 Mar 2003, 17 Mar 2009

WS-00952 Girija C H, Engrs, WS-24 (T), 17 Mar 2003, 17 Mar 2009

WS-00953 Pradnya Kulkarni, Engrs, WS-24 (T), 17 Mar 2003, 17 Mar 2009

WS-00988 Jadhav Charushila Madhukar, Engrs, WS-24 (T), 17 Mar 2003, 17 Mar 2009

JASWANT SINGH

Jt Dir

MS-8C

ARMY BRANCH

No. 376, dated 26 May 2009—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

INFANTRY

THE SIKH REGIMENT

To be Sub Maj

Sub Mangal Singh, (JC-498559Y), 06 Sep 2008

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Sub (Musn) Amarjit Singh (JC-498889X), 12 Jan 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Dec 2008 without effect on pay and allowances)

To be Subs

Nb Sub Surjit Singh (JC-499402L), 27 Sep 2008

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 11 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Balkar Singh (JC-499618M), 18 Feb 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 23 Dec 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Rajinder Singh (JC-499664F), 18 Feb 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sahib Singh (JC-499739N), 22 Jan 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Lachman Singh (JC-499598K), 01 Mar 2009

To be Sub (Clk)

Nb Sub (Clk) Dharambir (JC-499541P), 08 Jan 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub/Clk wef 01 Dec 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub (Clk) Nar Singh (JC-499578W), 14 Mar 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub/Clk wef 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub (Clk) Mahabir Singh (JC-499579Y), 18 Mar 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub/Clk wef 01 Feb 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub (Clk) Barinder Singh (JC-499600W), 12 Mar 2009

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub/Clk wef 01 Feb 2009 without effect on pay and allowances)

THE KUMAON REGIMENT

To be Sub Maj

Sub Raghubir Singh, (JC-538970P), 01 Jan 2009

Sub Krishna Nand Tewari, (JC-539252L), 01 Jan 2009

Sub Sumitra Nand Joshi, (JC-539344X), 01 Jan 2009

Sub Hukam Singh, (JC-539446N), 20 Jan 2009/01 Jan 2009*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances)

Sub Rajendra Prasad (JC-538764L), 01 Feb 2009

THE GARHWAL RIFLES

To be Sub Maj

Sub Padam Singh (JC-528962H), 13 Jan 2009/01 Aug 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Sub Rajbar Singh (JC-529171X), 01 Oct 2008

Sub Mahendra Singh (JC-529206H), 01 Dec 2008

Sub Bishan Datt (JC-529161N), 05 Feb 2009/01 Feb 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Feb 2009 without effect on pay and allowances)

Sub Inder Singh (JC-529343F), 23 Feb 2009/01 Feb 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Feb 2009 without effect on pay and allowances)

Sub Shital Singh (JC-529122P), 18 Mar 2009/01 Mar 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

Sub Dhan Singh (JC-529285H), 01 Apr 2009

To be Sub

Nb Sub Tajwar Singh (JC-530036W), 11 Aug 2008/01 Jun 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Jot Singh (JC-530096L), 01 Jul 2008

Nb Sub Ram Singh Rautela (JC-530081H), 07 Nov 2008/17 Sep 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 17 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Daleb Singh (JC-529981M), 29 Nov 2008/01 Oct 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Subhash Chandra Singh (JC-529908F), 18 Oct 2008

Nb Sub Rajendra Singh Rawat (JC-530017L), 30 Dec 2008/01 Nov 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Keshar Chand (JC-530112X), 01 Nov 2008

Nb Sub Surender Singh (JC-530123K), 18 Nov 2008

Nb Sub Manendra Singh (JC-530023Y), 01 Dec 2008

Nb Sub Jaipal Singh (JC-530043M), 01 Dec 2008

Nb Sub Meharwan Singh (JC-530074M), 21 Feb 2009/01 Feb 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Virender Singh (JC-530035N), 27 Mar 2009/16 Feb 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 16 Feb 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Pooran Singh (JC-530111P), 13 Mar 2009/01 Mar 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

JAK LI

To be Subs Sub Maj (GD)

Sub (GD) Mohd Khurshid (JC-592466H), 03 Dec 2008

(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Dec 2008)

Sub (GD) Ram Lal (JC-592528X), 03 Dec 2008

(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Dec 2008)

Sub (GD) Om Prakash (JC-592537Y), 01 Jan 2009

(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jan 2009)

Sub (GD) Rajender Singh (JC-592554Y), 01 Jan 2009

(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jan 2009)

Sub (GD) Sat Paul (JC-592762N), 01 Jan 2009

(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jan 2009)

THE DOGRA REGIMENT

To be Sub Maj

Sub Kamal Singh, SM (JC-519694H), 23 Dec 2008+

+(Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 Nov 2008 without effect on pay & allowances)

To be Sub

Nb Sub Yash Paul (JC-520248N), 17 Sep 2008+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Kashmir Singh (JC-520301N), 18 Dec 2008+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from
 01 Jun 2008 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Dola Singh (JC-520375H), 18 Dec 2008+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from
 01 Jun 2008 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Suresh Singh (JC-520399M), 18 Dec 2008+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from
 01 Jun 2008 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Anil Kumar (JC-520428W), 26 Nov 2008+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from
 24 Jun 2008 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Kamlesh Kumar (JC-520379Y), 18 Jan 2009+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from
 01 Sep 2008 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Surinder Kumar (JC-520380N), 15 Jan 2009+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from
 01 Oct 2008 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Lal Chand (JC-520067H), 01 Dec 2008+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from
 01 Nov 2008 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Subhash Chand (JC-520464F), 06 Jan 2009+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from
 01 Nov 2008 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Mastan Singh (JC-520201H), 03 Jan 2009+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from
 01 Dec 2008 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Brij Lal (JC-520291P), 03 Jan 2009+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from
 01 Jan 2009 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Kashmir Singh (JC-520413N), 05 Jan 2009+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from
 01 Jan 2009 without effect on pay & allowances)

JAK RIF

To be Subs Sub Maj (GD)

Sub Hem Singh (JC-579495Y), Jak Rif, 01 Dec 2008
 Sub Rattan Chand (JC-579586H), Jak Rif, 10 Jan 2009

To be Subs Sub (GD)

Nb Sub Tek Chand (JC-580281P), Jak Rif, 01 May 2008
 Nb Sub Preet Singh, SC (JC-580401H), Jak Rif, 01 Aug
 2008
 Nb Sub Surinder Kumar (JC-580425M), Jak Rif, 01 Nov
 2008

Nb Sub Binder Singh (JC-580238N), Jak Rif, 01 Dec 2008

Nb Sub Joginder Singh (JC-580242N), Jak Rif, 01 Dec
 2008

Nb Sub Sukhdev Raj (JC-580173L), Jak Rif, 01 Jan 2009

Nb Sub Abdul Aziz (JC-580202W), Jak Rif, 01 Jan 2009

Nb Sub Ruldu Ram Sharma (JC-580223L), Jak Rif, 01 Jan
 2009

Nb Sub Parbhat Singh (JC-580227F), Jak Rif, 01 Jan 2009

Nb Sub Besar Singh (JC-580235A), Jak Rif, 01 Jan 2009

Nb Sub Kusal Singh (JC-580236H), Jak Rif, 01 Jan 2009

Nb Sub Sarabjit Singh (JC-580237L), Jak Rif, 01 Jan
 2009

Nb Sub Ranjit Singh (JC-580249A), Jak Rif, 01 Jan 2009

Nb Sub Puran Singh (JC-580247P), Jak Rif, 01 Jan 2009

Nb Sub Kamlesh Kumar (JC-580276K), Jak Rif, 01 Jan
 2009

Nb Sub Lekh Raj (JC-580407K), Jak Rif, 01 Jan 2009

Nb Sub Vinod Kumar (JC-580438K), Jak Rif, 01 Jan 2009

Nb Sub Raj Mal (JC-580252A), Jak Rif, 01 Feb 2009

To be Subs Sub (GD)

Nb Sub (Clk) Bhawesh Kumar (JC-580152P), Jak Rif,
 01 Dec 2008

To be Subs Sub Maj (GD)

Sub Sobha Ram (JC-579364N), Jak Rif, 26 Nov 2008

Sub Jagdish Chand (JC-579404K), Jak Rif, 01 Dec 2008

Sub Mohd. Razaq (JC-579351W), Jak Rif, 01 Jan 2009

To be Subs Sub (GD)

Nb Sub Ranjit Singh (JC-580210N), Jak Rif, 13 May 2008

Nb Sub Bhag Din (JC-580400A), Jak Rif, 01 Aug 2008

Nb Sub Amarjit Singh (JC-580214K), Jak Rif, 03 Aug 2008

Nb Sub Ravinder Singh (JC-580286N), Jak Rif, 03 Aug
 2008

Nb Sub Hem Raj (JC-580193L), Jak Rif, 01 Oct 2008

Nb Sub Badri Dass (JC-580295P), Jak Rif, 01 Oct 2008

Nb Sub Mohd Nishal Khan (JC-580321L), Jak Rif, 01 Oct
 2008

Nb Sub Gopal Singh (JC-580168A), Jak Rif, 01 Nov 2008

Nb Sub Birbal (JC-580217X), Jak Rif, 01 Nov 2008

Nb Sub Randhir Singh Punia (JC-580351H), Jak Rif,
 01 Nov 2008

Nb Sub Chain Singh (JC-580171A), Jak Rif, 01 Dec 2008

Nb Sub Girdhari Lal (JC-580221A), Jak Rif, 01 Dec 2008

Nb Sub Tilak Raj (JC-580334X), Jak Rif, 01 Dec 2008

Nb Sub Tarsem Lal (JC-580311F), Jak Rif, 01 Dec 2008

Nb Sub Balkar Chand (JC-580375M), Jak Rif, 01 Dec 2008

Nb Sub Umesh Khadga (JC-580398M), Jak Rif, 01 Dec 2008

Nb Sub Santosh Kumar (JC-580402L), Jak Rif, 01 Dec 2008

Nb Sub Harbans Singh (JC-580429H), Jak Rif, 01 Dec 2008

Nb Sub Jagtar Singh (JC-580457P), Jak Rif, 01 Dec 2008

Nb Sub Ajay Kumar (JC-580397L), Jak Rif, 10 Dec 2008

Nb Sub Mohinder Singh (JC-580215P), Jak Rif, 01 Jan 2009

Nb Sub Abdul Quyoom (JC-580219H), Jak Rif, 01 Jan 2009

Nb Sub Karan Singh (JC-580352L), Jak Rif, 01 Jan 2009

Nb Sub Dilawar Singh (JC-580371W), Jak Rif, 01 Jan 2009

Nb Sub Karnail Singh (JC-580426P), Jak Rif, 01 Jan 2009

To be Subs Sub Maj (GD)

Sub Vipen Kumar Kaushal (JC-579439A), Jak Rif, 22 Nov 2008

Sub Clk Ajmer Chand Katoch (JC-579533K), Jak Rif, 01 Jan 2009

Sub Krishan Chand (JC-579470M), Jak Rif, 01 Mar 2009

To be Subs Sub (GD)

Nb Sub Kamlesh Kumar Thakur (JC-580222H), Jak Rif, 01 Feb 2008

Nb Sub Mangal Singh (JC-580243Y), Jak Rif, 01 Feb 2008

Nb Sub Davinder Singh (JC-580381H), Jak Rif, 01 Feb 2008

Nb Sub Prem Lal (JC-580376P), Jak Rif, 01 Mar 2008

Nb Sub Gurmeh Singh (JC-580230F), Jak Rif, 01 Jul 2008

Nb Sub Jagat Singh (JC-580273W), Jak Rif, 01 Aug 2008

Nb Sub Mohd Quyoom (JC-580380X), Jak Rif, 01 Aug 2008

Nb Sub Mohan Singh (JC-580190L), Jak Rif, 24 Sep 2008

Nb Sub Kamlesh Chand Sharma (JC-580308F), Jak Rif, 01 Oct 2008

Nb Sub Ashok Kumar (JC-580287W), Jak Rif, 01 Nov 2008

Nb Sub Jangu Ram (JC-580197K), Jak Rif, 01 Dec 2008

Nb Sub Rajveer Cheeta (JC-580322N), Jak Rif, 01 Dec 2008

Nb Sub Krishan Kumar (JC-580416L), Jak Rif, 01 Dec 2008

Nb Sub Satish Chand (JC-580409P), Jak Rif, 01 Jan 2009

Nb Sub Hari Prashad Shrama (JC-580034F), Jak Rif, 01 Feb 2009

Nb Sub Madho Ram (JC-580354W), Jak Rif, 01 Feb 2009

Nb Sub Kashmir Singh (JC-580384N), Jak Rif, 01 Feb 2009

Nb Sub Rattan Lal (JC-580387F), Jak Rif, 01 Feb 2009

Nb Sub Beni Chand (JC-580399W), Jak Rif, 01 Feb 2009

Nb Sub Harjinder Singh (JC-580417N), Jak Rif, 01 Feb 2009

Nb Sub Nand Lal (JC-580279X), Jak Rif, 01 Mar 2009

9 GR

To be Sub Major

Sub Bisnu Bahadur Chhetri (JC-629593X), 22 Nov 2008/ 26 Oct 2008*

Sub Sanjay Pun (JC-629485N), 08 Sep 2008/01 Sep 2008*

*(Granted seniority without effect on pay and allowances)

3 GR

To be Sub Major

Sub Chandra Bahadur Thapa (JC-607445M), 29 Feb 2008/ 01 Feb 2008*

Sub Dhan Bahadur Rana (JC-607460F), 29 Feb 2008/ 01 Feb 2008*

Sub/Clk Bhim Prasad (JC-607135F), 16 Dec 2008/01 Sep 2008*

*(Granted seniority without effect on pay and allowances)

THE PUNJAB REGIMENT

To be Sub Maj

Sub (Infsol) Ranjeet Singh Chandel (JC-429264X), 01 Feb 2009

To be Sub

Nb Sub (Infsol) Balbir Singh (JC-430108A), 28 Jan 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 04 Jan 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub (Infsol) Jagmohan Singh (JC-429961X), 01 Feb 2009

Nb Sub (Infsol) Nasib Singh (JC-429958X), 01 Mar 2009

Nb Sub (Infsol) Tersem Singh (JC-430034W), 02 Mar 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

To be Sub Maj

Sub Gurcharanjit Singh (JC-428947Y), 09 Mar 2009

To be Sub

Nb Sub Dhup Singh (JC-430008P), 16 Feb 2009

Nb Sub Kulwinder Singh (JC-429987M), 03 Mar 2009

Nb Sub Avtar Singh (JC-430262Y), 01 Mar 2009

THE DOGRA REGIMENT

To be Sub

Nb Sub Rishal Singh (JC-520002P), 20 Jan 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Mar 2007 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ravinder Kumar (JC-520241K), 15 Aug 2008+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Feb 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Swami Ram (JC-520351Y), 01 Jan 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Rakesh Bhardwaj (JC-520352F), 01 Jan 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Prem Lal (JC-520353K), 01 Jan 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Hoshiar Singh (JC-520354M), 06 Jan 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Onkar Chand (JC-520453P), 21 Oct 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Amar Singh (JC-520358H), 01 Jan 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Achhar Singh (JC-520417K), 01 Jan 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 30 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Daljeet Singh (JC-520427N), 01 Jan 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Darshan Lal (JC-520446Y), 03 Jan 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Deep Singh (JC-520433F), 01 Jan 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Basudev Singh (JC-520202L), 10 Jan 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 02 Dec 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sunil Kumar (JC-520195A), 01 Feb 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Feb 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sandesh Kumar (JC-520245A), 22 May 2008+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Mar 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Anil Kumar (JC-520355P), 01 Jan 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Joginder Pal (JC-520357A), 01 Jan 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Tarsaim Singh (JC-520345L), 26 Jan 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Mohender Singh Mankotia (JC-520347W), 25 Feb 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Joginder Singh (JC-520376L), 09 Jan 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Rajander Prasad (JC-520414W), 05 Feb 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sher Singh (JC-520430N), 17 Feb 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Shiv Raj (JC-520436P), 25 Oct 2008+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Arvind Kumar (JC-520426L), 14 Feb 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Onkar Chand (JC-520457L), 23 Feb 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Kishore Lal (JC-520442H), 20 Feb 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ramesh Pal (JC-520458N), 04 Mar 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Dhian Singh (JC-520451K), 14 Feb 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Vijay Kumar SM (JC-520361H), 10 Feb 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Thakur Dass Pal (JC-520115X), 27 Oct 2008+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 28 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ashok Kumar (JC-520463Y), 23 Jan 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Kuldeep Singh Chauhan (JC-520071L), 16 Feb 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Dec 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Surender Kumar (JC-520072N), 25 Jan 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Dec 2008 without effect on pay and allowances)

To be Sub (Clk)

Nb Sub Sukhvir Singh Rathore (JC-520222Y), 11 Feb 2009+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances)

THE PUNJAB REGIMENT

To be Sub

Nb Sub Bhushan Lal (JC-429996N), 01 Jun 2008

Nb Sub Jai Dev Pal Singh (JC-430028H), 01 Oct 2008

Nb Sub Rajbir Singh (JC-429607H), 01 Dec 2008

Nb Sub Jagir Singh (JC-430000H), 01 Dec 2008

Nb Sub Ranjeet Singh (JC-430102Y), 01 Jan 2009

THE JAT REGIMENT

To be Sub

Nb Sub Hari Ram Rapswal (JC-489523Y), 09 Jul 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Nand Kavar (JC-489519W), 25 Nov 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ram Phal (JC-489412F), 01 Sep 2006

Nb Sub Rajesh Kumar (JC-489509M), 09 Oct 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2006 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Jagdeo Ram (JC-489444K), 09 Jul 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Balraj Singh (JC-489491F), 26 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Jai Narayan (JC-489593X), 01 Jul 2007

Nb Sub Surender Pal Singh Rathi (JC-489663L), 01 Jul 2007

Nb Sub Bijendra Singh (JC-489650N), 01 Jul 2007

Nb Sub Dharambir Singh (JC-489643X), 01 Jul 2007

Nb Sub Vikram Singh (JC-489780W), 01 Jul 2007

Nb Sub Sombir (JC-489721K), 01 Jul 2007

Nb Sub Dhan Singh (JC-489757H), 01 Jul 2007

Nb Sub Likhma Ram (JC-489797K), 01 Jul 2007

Nb Sub Pratap Singh (JC-489611P), 06 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Kishan Lal (JC-489575P), 09 Oct 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Nihal Singh (JC-489617W), 15 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Deo Karan Singh (JC-489680L), 18 Jan 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Dhokal Ram (JC-489709H), 01 Aug 2007

Nb Sub Bhupender Singh (JC-489710X), 01 Aug 2007

Nb Sub Shatender Singh Siwach (JC-489758L), 01 Aug 2007

Nb Sub Jaipal Singh (JC-489759N), 01 Aug 2007

Nb Sub Parbhu Singh (JC-489738X), 01 Aug 2007

Nb Sub Arjun Ram (JC-489774H), 01 Aug 2007

Nb Sub Manbir Singh (JC-489775L), 01 Aug 2007

Nb Sub Rajvir Singh (JC-489825L), 01 Jun 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Jai Parkash (JC-489681H), 07 Aug 2007

Nb Sub Nem Singh (JC-489420A), 01 Sep 2007

Nb Sub Harendra Singh (JC-489713L), 01 Sep 2007

Nb Sub Randhir Singh (JC-489714N), 01 Sep 2007

Nb Sub Yespal Singh (JC-489679W), 10 Oct 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 13 Sep 2007 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Jagvir Singh (JC-489421H), 03 Feb 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Yudhvir Singh (JC-489422L), 01 Oct 2007

Nb Sub Dilbag Singh (JC-489612X), 01 Oct 2007

Nb Sub Dharambir (JC-489613A), 09 Jan 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Jaipal (JC-489695N), 01 Oct 2007

Nb Sub Ranjeet Singh Jat (JC-489719M), 01 Oct 2007

Nb Sub Subh Karan Singh (JC-489745N), 01 Oct 2007

Nb Sub Ranbir Singh (JC-489783K), 01 Oct 2007

Nb Sub Subhash Chand (JC-489915M), 01 Jun 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 23 Oct 2007 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Raj Kapur (JC-489381M), 01 May 2007

Nb Sub Gulab Singh (JC-489373N), 01 May 2007

Nb Sub Subhay Singh (JC-489501A), 01 May 2007

Nb Sub Raj Pal Singh (JC-489602N), 01 May 2007

Nb Sub Sumer Singh (JC-489671K), 17 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2007 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Kaptan Singh (JC-489693H), 01 Jun 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2007 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Raghuveer Singh (JC-489724X), 01 Jun 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2007 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Jeena Ram (JC-489708A), 13 Jun 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2007 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sarjeet Singh (JC-489779F), 01 Jun 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2007 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Mahendra Singh (JC-489687P), 22 Oct 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 02 May 2007 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Vazir Singh (JC-489530P), 24 Jul 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 07 May 2007 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Raj Pal (JC-489592P), 07 May 2007

Nb Sub Kadam Singh (JC-489562X), 01 Jun 2007

Nb Sub Bijender Singh (JC-489547H), 01 Jun 2007

Nb Sub Bijender Singh (JC-489548L), 01 Jun 2007

Nb Sub Nathu Ram Dudi (JC-489603W), 01 Jun 2007

Nb Sub Ramesh Kumar (JC-489664M), 01 Jun 2007

Nb Sub Balu Ram (JC-489665W), 01 Jun 2007

Nb Sub Balbir Singh (JC-489675A), 26 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Shiv Pal (JC-489694L), 01 Jun 2007

Nb Sub Virender Singh (JC-489720F), 04 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Suresh Kumar Pangal (JC-489736M), 01 Jun 2007

Nb Sub Vijaya Kumar (JC-489737P), 05 Jun 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Brijvir Singh Tanwar (JC-489751F), 01 Jun 2007

Nb Sub Kunwar Singh Sinsinwar (JC-489766K), 05 Nov 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Mahesh Chand (JC-489772X), 22 Nov 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 02 Jun 2007 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sardar Singh (JC-489433X), 03 Jun 2007

Nb Sub Pooran Ram Bazya (JC-489684F), 03 Jun 2007

THE SIKH LI

To be Sub (GD)

Nb Sub Makhan Singh (JC-509234N), 01 Apr 2007

Nb Sub Baljinder Singh (JC-509068L), 01 May 2007

Nb Sub Baldev Singh (JC-509240F), 01 Jun 2007

Nb Sub Dhir Singh (JC-509241K), 01 Jun 2007

Nb Sub Bahadur Singh (JC-509296N), 01 Jul 2007

Nb Sub Paramjit Singh (JC-509299F), 01 Jul 2007

Nb Sub Jasmail Singh (JC-509141Y), 01 Aug 2007

Nb Sub Jaspal Singh (JC-509301N), 30 Aug 2007

Nb Sub Surinder Singh (JC-509307P), 30 Aug 2007

Nb Sub Purusotam Singh (JC-509125F), 01 Nov 2007

Nb Sub Charan Singh (JC-508728L), 13 Nov 2007

Nb Sub Baljit Singh (JC-509178A), 20 Nov 2007
 Nb Sub Sukhviri Singh (JC-509126K), 20 Nov 2007
 Nb Sub Dalbara Singh (JC-509127M), 01 Dec 2007
 Nb Sub Darshan Singh (JC-509130M), 01 Dec 2007
 Nb Sub Jagpal Singh (JC-509134H), 01 Dec 2007
 Nb Sub Jagtar Singh (JC-509152L), 01 Jan 2008
 Nb Sub Surjit Singh Dulchi (JC-509204W), 01 Jan 2008
 Nb Sub Jagtar Singh (JC-509275X), 01 Jan 2008
 Nb Sub Darshan Singh (JC-509277H), 01 Jan 2008
 Nb Sub Dara Singh (JC-509260P), 01 Jan 2008
 Nb Sub Labh Singh (JC-509261X), 01 Jan 2008
 Nb Sub Chhinderpal Singh (JC-509199W), 09 Jan 2008
 Nb Sub Pirthi Singh (JC-509112K), 22 Feb 2008
 Nb Sub Mohinder Singh (JC-509180X), 01 Mar 2008
 Nb Sub Manjit Singh (JC-509300L), 01 Mar 2008
 Nb Sub Mukhtar Singh (JC-509202L), 01 Mar 2008
 Nb Sub Shinder Singh (JC-509206F), 01 Mar 2008
 Nb Sub Navinder Singh (JC-509330H), 01 Mar 2008
 Nb Sub Swaran Singh (JC-509324P), 01 Apr 2008
 Nb Sub Harnaik Singh (JC-509264L), 01 Apr 2008
 Nb Sub Hira Singh (JC-509336K), 01 Apr 2008
 Nb Sub Harmesh Singh (JC-509327H), 01 Apr 2008
 Nb Sub Balbir Singh (JC-509278L), 01 Apr 2008
 Nb Sub Gurmit Singh (JC-509128P), 18 Apr 2008
 Nb Sub Baljit Singh (JC-509353K), 01 May 2008
 Nb Sub Balwinder Singh (JC-509379Y), 01 Jun 2008
 Nb Sub Karam Singh (JC-509380N), 01 Jun 2008
 Nb Sub Balvir Singh (JC-509397F), 01 Jun 2008
 Nb Sub Satnam Singh (JC-509398K), 01 Jun 2008
 Nb Sub Jagir Singh (JC-509406X), 01 Jun 2008
 Nb Sub Lakha Singh (JC-509417K), 01 Jun 2008
 Nb Sub Randhir Singh (JC-509272P), 01 Jun 2008
 Nb Sub Surjit Singh (JC-509399M), 01 Jun 2008
 Nb Sub Dilbag Singh (JC-509400W), 01 Jun 2008
 Nb Sub Balvir Singh (JC-509401Y), 01 Jun 2008
 Nb Sub Gurtej Singh (JC-509457L), 01 Jun 2008
 Nb Sub Manjit Singh (JC-509460L), 01 Jun 2008
 Nb Sub Dharampal Singh (JC-509418N), 01 Jul 2008
 Nb Sub Nachhattar Singh (JC-509421M), 01 Jul 2008

Nb Sub Nazar Singh (JC-509107Y), 01 Aug 2008
 Nb Sub Tarlochan Singh (JC-509118L), 01 Aug 2008
 Nb Sub Swaran Singh (JC-509422P), 01 Aug 2008
 Nb Sub Ajmer Singh (JC-509212P), 01 Aug 2008
 Nb Sub Jagtar Singh (JC-509119N), 01 Sep 2008
 Nb Sub Surinder Singh (JC-509230X), 01 Sep 2008
 Nb Sub Daljit Singh (JC-509139F), 01 Sep 2008
 Nb Sub Dalip Singh (JC-509423X), 01 Sep 2008
 Nb Sub Jagdish Singh (JC-509431W), 01 Sep 2008
 Nb Sub Sukhjinder Singh (JC-509140W), 01 Oct 2008
 Nb Sub Bhajan Singh (JC-509452M), 01 Oct 2008
 Nb Sub Bhim Singh (JC-509239M), 01 Nov 2008
 Nb Sub Dawinder Singh (JC-509382Y), 01 Nov 2008
 Nb Sub Santokh Singh (JC-509453P), 01 Nov 2008

9 GR

To be Sub

Nb Sub Ghan Bahadur Chhetri (JC-629703F), 01 Nov 2007
 Nb Sub Sher Bahadur Chhetri (JC-629695N), 04 Dec 2007/
 01 Dec 2007*
 Nb Sub Dhor Bahadur Rimal (JC-629704K), 01 Dec 2007
 Nb Sub Om Bahadur Khan (JC-629706P), 01 Dec 2007
 Nb Sub Yam Bahadur Khattri (JC-629708A), 01 Dec 2007
 *(Granted seniority without effect on pay and allowances)
 Nb Sub Lesh Bahadur Thapa (JC-629713L), 01 Feb 2008
 Nb Sub Raj Bahadur Thappa (JC-629769X), 01 Mar 2008
 Nb Sub Nanda Bir Chhetri (JC-629716Y), 25 Mar 2008/
 01 Mar 2008*
 Nb Sub Khadka Bahadur Thapa (JC-629717F), 01 May
 2008
 Nb Sub Mahendra Bahadur Thapa (JC-629742A), 26 May
 2008/01 May 2008*
 *(Granted seniority without effect on pay and allowances)
 Nb Sub Buddhi Bahadur Shahi (JC-629785P), 14 Jul 2008/
 09 Jun 2008*
 Nb Sub Ratna Bahadur Shahi (JC-629786X), 25 Jul 2008/
 01 Jul 2008*
 Nb Sub/Clk Pratap Singh (JC-629666Y), 01 Aug 2008
 Nb Sub/Clk Sarade Hanumant Atmaram (JC-629566N),
 01 Sep 2008
 Nb Sub Raj Bandhu Paudel (JC-629789L), 01 Sep 2009
 *(Granted seniority without effect on pay and allowances)

Nb Sub Tej Bahadur Chhetri (JC-629799P), 25 Oct 2008/
01 Oct 2008*

Nb Sub Jit Bahadur Chhetri (JC-629714H), 01 Oct 2008

Nb Sub Nar Bahadur Chhetri (JC-629720F), 19 Dec 2008/
01 Oct 2008*

Nb Sub Anil Kumar Thapa (JC-629722M), 19 Dec 2008/
26 Oct 2008*

Nb Sub Purna Bahadur Gharti (JC-629730L), 01 Nov 2008

*(Granted seniority without effect on pay and allowances)

Nb Sub Dil Bahadur Chhetri (JC-629731H), 01 Nov 2008

Nb Sub Amit Kumar Chhetri (JC-629753M), 02 Nov 2008/
01 Nov 2008*

Nb Sub Yob Raj Chhetri (JC-629763W), 21 Nov 2008/
01 Nov 2008*

Nb Sub Jatindra Bam Malla (JC-629733Y), 17 Dec 2008/
01 Dec 2008

Nb Sub Eman Singh Thapa (JC-629764Y), 22 Dec 2008/
01 Dec 2008*

*Granted seniority without effect on pay and allowances

Nb Sub Tilak Malla (JC-629765F), 01 Dec 2008

Nb Sub Bharat Chhetri (JC-629791H), 01 Jan 2009

Nb Sub Kamal Dhoj Malla (JC-629804F), 10 Feb 2009/
01 Jan 2009*

Nb Sub Bhim Bahadur Chhetri (JC-629747Y), 01 Feb 2009

Nb Sub Dil Bahadur Chhetri (JC-629756A), 01 Feb 2009

3 GR

To be Subedar

Nb Sub Ale Deb Bahadur (JC-607609X), 01 Mar 2008

Nb Sub Lila Bahadur Thapa (JC-607610M), 01 Mar 2008

Nb Sub Ganesh Bahadur Rana (JC-607621Y), 04 Mar
2008/01 Mar 2008*

Nb Sub Ram Bahadur Thapa (JC-607628H), 01 Mar 2008

Nb Sub Panch Bahadur Gurung (JC-607629L), 01 Mar
2008

*(Granted seniority without effect on pay and allowances)

Nb Sub Falendra Prasad Gurung (JC-607639P), 01 Feb
2008

Nb Sub Mantri Jung Gurung (JC-607641M), 27 Feb 2008/
01 Feb 2008*

Nb Sub Tej Bahadur Rana (JC-607682W), 01 Feb 2008

Nb Sub/Clk Nagendra Yadav (JC-607583N), 01 Mar 2008

Nb Sub Kaji Raj Thapa (JC-607598W), 01 Mar 2008

*(Granted seniority without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ram Bahadur Thapa (JC-607631H), 01 Mar 2008

Nb Sub Jas Bahadur Gurung (JC-607630A), 01 Apr 2008

Nb Sub Hem Bahadur Thapa (JC-607643X), 02 Apr 2008/
01 Apr 2008*

Nb Sub Dev Bahadur Thapa (JC-607650N), 01 Apr 2008

Nb Sub Jay Bahadur Ghale (JC-607651W), 01 Apr 2008

*(Granted seniority without effect on pay and allowances)

Nb Sub Bimal Kumar Roka (JC-607698F), 26 Aug 2008/25
Jun 2008*

Nb Sub Lok Bahadur Gurung (JC-607709H), 08 Sep 2008/
01 Jul 2008*

Nb Sub Min Bahadur Bhujel (JC-607660X), 19 Oct 2008/
07 Jul 2008*

Nb Sub/Clk Surendra Singh Pundir (JC-607636F), 14 Oct
2008/01 Aug 2008*

Nb Sub Buddhi Bahadur Gurung (JC-607665W), 01 Aug
2008

*(Granted seniority without effect on pay and allowances)

Nb Sub Naresh Kumar Gurung (JC-607714N), 15 Aug
2008/01 Aug 2008*

Nb Sub/Clk Jay Ram Yadava (JC-607646L), 29 Dec 2008/
01 Sep 2008*

Nb Sub Man Kaji Gurung (JC-607661A), 19 Oct 2008/
01 Oct 2008*

Nb Sub Gagan Bahadur Ale (JC-607675A), 01 Oct 2008

Nb Sub Jagat Bahadur Thapa (JC-607710X), 01 Oct 2008

*(Granted seniority without effect on pay and allowances)

Nb Sub Man Prasad Thapa (JC-607644A), 03 Nov 2008/
01 Nov 2008*

Nb Sub Tika Ram Rana (JC-607711A), 07 Nov 2008/
01 Nov 2008*

Nb Sub Dil Bahadur Thapa (JC-607632L), 24 Dec 2008/
29 Nov 2008*

Nb Sub Pharsuram Shrestha (JC-607653F), 01 Jan 2009/
29 Nov 2008*

Nb Sub Ajeet Bahadur Pun (JC-607662H), 02 Feb 2009/
01 Jan 2009*

Nb Sub Sun Bahadur Thapa (JC-607680L), 01 Feb 2009

*(Granted seniority without effect on pay and allowances)

Nb Sub Tej Bahadur Gurung (JC-607647N), 14 Jul 2007/
01 Oct 2006*

Nb Sub Top Bahadur Thapa (JC-607590K), 01 Dec 2007

Nb Sub Dud Man Gurung (JC-607594A), 05 Feb 2008/
01 Jan 2008*

Nb Sub Purna Bahadur Thapa (JC-607627A), 25 Feb
2008/01 Feb 2008*

Nb Sub Rabindra Gurung (JC-607640K), 01 Feb 2008

Nb Sub Dev Bahadur Pun (JC-607638M), 01 Feb 2008

*(Granted seniority without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ram Bahadur Thapa (JC-607634W), 30 Jun 2008/
25 May 2008*

Nb Sub Shyam Lal Thapa (JC-607635Y), 30 Jun 2008/
25 May 2008*

Nb Sub Ram Bahadur Gurung (JC-607685K), 30 Jun 2008/
25 May 2008*

Nb Sub Kamal Bahadur Pun (JC-607652Y), 05 Nov 2008/
01 Jun 2008*

Nb Sub Suresh Bahadur Thapa (JC-607697Y), 12 Jul 2008/
01 Jun 2008*

*(Granted seniority without effect on pay and allowances)

J. ROY CHOWDHURY
Under Secy.

No. 377, dated 26th May 2009—The President is pleased
to make the following promotions :—

REGULAR ARMY
REGIMENT OF ARTILLERY

To be Subs Subedar (GD)

Nb Sub Sahadev Singh (JC-269115H), 22 Oct 2008/01 Sep
2008*

Nb Sub Sukhwinder Singh (JC-268859F), 09 Oct 2008/
01 Sep 2008*

Nb Sub Nazar Singh (JC-269099W), 23 Oct 2008/01 Sep
2008*

Nb Sub Joginder Singh (JC-269542Y), 05 Sep 2008/01 Sep
2008*

Nb Sub Umed Singh (JC-268908Y), 28 Dec 2008/01 Sep
2008*

Nb Sub Virendra Pal (JC-269493F), 30 Sep 2008/01 Sep
2008*

Nb Sub Krishan Chander Bhatt (JC-269899P), 07 Nov
2008/01 Sep 2008*

Nb Sub Ram Nath (JC-269996M), 29 Oct 2008/01 Sep
2008*

Nb Sub Shyambir Singh (JC-270256K), 17 Oct 2008/01
Sep 2008*

Nb Sub Mahavir Yadav (JC-270380L), 18 Nov 2008/01
Aug 2008*

Nb Sub Kameshwar Prasad (JC-269867M), 12 Nov 2008/
01 Aug 2008*

Nb Sub Bhatkule Harihar Yashwant (JC-269301Y), 29 Nov
2008/31 Aug 2008*

Nb Sub Gurdev Singh (JC-268969W), 07 Nov 2008/31
Aug 2008*

Nb Sub Ramendra Singh (JC-270029K), 10 Nov 2008/
31 Aug 2008*

Nb Sub Ranvir Singh Chauhan (JC-269512F), 11 Nov 2008/
01 Oct 2008*

Nb Sub Palwparthi Samuel Das (JC-267905Y), 22 Nov
2008/01 Oct 2008*

Nb Sub Ishwar Singh (JC-268264K), 17 Dec 2008/01 Oct
2008*

Nb Sub Indrajeet Dubey (JC-268510K), 07 Dec 2008/01
Oct 2008*

Nb Sub Vijay Kumar Rana (JC-267040X), 07 Nov 2008/
01 Nov 2008*

Nb Sub Mahesh Babu Sharma (JC-267937F), 17 Dec 2008/
01 Nov 2008*

Nb Sub Sohan Lal (JC-269084N), 03 Dec 2008/01 Nov
2008*

Nb Sub Bhagwan Prasad Singh (JC-269660M), 01 Nov
2008*

Nb Sub Subhash Chand (JC-269956L), 18 Dec 2008/01
Nov 2008*

Nb Sub V Bharathi (JC-270734H), 18 Dec 2008/01 Nov
2008*

Nb Sub Basavaraj Basavantappa Gouri (JC-268110X),
31 Dec 2008/01 Dec 2008*

Nb Sub Vijay Kumar (JC-268111A), 07 Jan 2009/01 Dec
2008*

Nb Sub Mohd. Iqbal Oli (JC-268363M), 01 Dec 2008

Nb Sub Bhanwar Singh (JC-268518W), 26 Dec 2008/01
Dec 2008*

Nb Sub Anil Kumar (JC-269163H), 01 Dec 2008

Nb Sub Dalip Chand (JC-268920A), 17 Dec 2008/01 Dec
2008*

Nb Sub Suresh Babu G (JC-269157P), 06 Dec 2008/01 Dec
2008*

Nb Sub Parshotam Singh (JC-269516X), 02 Dec 2008/01
Dec 2008*

Nb Sub Satyabir Singh (JC-269345W), 01 Dec 2008

Nb Sub Rajinder Kumar (JC-269554N), 05 Dec 2008/01
Dec 2008*

Nb Sub Nawab Singh (JC-269504H), 14 Dec 2008/01 Dec
2008*

Nb Sub Ram Pravesh Paswan (JC-269666N), 01 Dec 2008

Nb Sub Ulahannan PJ (JC-269761A), 10 Dec 2008/01 Dec
2008*

Nb Sub Balraj (JC-270124W), 21 Jan 2009/01 Dec 2008*
(*Gtd Seniority wef)

AV BAGUR
Under Secy.

ARMY BRANCH

No. 378, dated 27th May 2009—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS

To be Subs Subedar

Sub Janga Bahadur Ale (JC-826147P), 01 May 2008
Sub Kamal Singh (JC-826148X), 13 Jun 2008/01 Jun 2008*
Sub Chindamada T Devaiah (JC-826149A), 21 Jun 2008/
01 Jun 2008*
Sub Magan Singh (JC-826151X), 08 Jul 2008/01 Jul 2008*
Sub Ashok Singh (JC-826152A), 01 Sep 2008
Sub Arvindakshan TV (JC-826150P), 01 Dec 2008
Sub Harbans Lal (JC-826153H), 01 Dec 2008
Sub Ram Singh (JC-826154L), 01 Mar 2009
Sub Madan Lal Sharma (JC-826155N), 01 Apr 2009
Sub Gulam Murshid (JC-826156W), 01 Apr 2009

*Date of seniority

P P SINGH
Under Secy.

ARMY BRANCH

No. 379, dated 27th May 2009—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

INFANTRY

THE GARHWAL RIFLES

To be Nb Sub

Hav Jagmohan Singh (No. 4068562P now JC-530605Y),
14 Oct 2008/09 Jul 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 09 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Umed Singh, SM (No. 4068349P now JC-530606F),
04 Feb 2009/10 Aug 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 10 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Pancham Singh (No. 4066027W now JC-530607K),
18 Dec 2008/12 Aug 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 12 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Ramesh Chandra (No. 4068712A now JC-530608M),
01 Sep 2008

Hav Narayan Singh (No. 4070367W now JC-530609P),
12 Nov 2008/01 Oct 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Madan Singh (No. 4069860X now JC-530610K),
23 Dec 2008/01 Nov 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Ram Singh (No. 4070379L now JC-530611M), 05 Dec
2008/01 Nov 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Madho Singh (No. 4068382M now JC-530612P),
28 Jan 2009/18 Nov 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 18 Nov 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Surendra Lal (No. 4068136F now JC-530613X),
25 Nov 2008/18 Nov 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 18 Nov 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Bhawan Singh (No. 4068662A now JC-530615H),
01 Dec 2008

Hav Yashvir Singh (No. 4068381K now JC-530616L),
07 Feb 2009/01 Dec 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Bharat Singh Negi (No. 4067753X now JC-530617N),
16 Feb 2009/01 Dec 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Vinod Kumar (No. 4069164A now JC-530618W),
28 Jan 2009/01 Dec 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Madan Singh (No. 4069208M now JC-530619Y),
28 Jan 2009/01 Dec 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Rajender Singh Bisht (No. 4068844N now JC-
530620N), 01 Dec 2008

Hav Vinod Prasad (No. 4068808H now JC-530621W),
01 Dec 2008

Hav Hari Singh (No. 4068417X now JC-530622Y), 16 Feb 2009/06 Dec 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 06 Dec 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Shankru (No. 4068430F now JC-530623F), 24 Jan 2009/06 Dec 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 06 Dec 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Dayal Singh (No. 4072303K now JC-530624K), 13 Feb 2009/01 Jan 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Ajit Singh, SM (No. 4068818M now JC-530625M), 09 Feb 2009/01 Jan 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Vinod Kumar (No. 4068889N now JC-530626P), 19 Feb 2009/01 Jan 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Surendra Singh Rautela (No. 13617801P now JC-530627X), 16 Feb 2009/01 Jan 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Awatar Singh (No. 4069535X now JC-530628A), 06 Feb 2009/01 Jan 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Mahepal Singh (No. 4068374N now JC-530629H), 06 Feb 2009/01 Feb 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Chandan Singh (No. 4069443L now JC-530630X), 13 Feb 2009/01 Feb 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Tajbar Singh Gusain (No. 4068917P now JC-530631A), 01 Feb 2009

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Gopal Datt Mamgain (No. 4068740M now JC-530614A), 01 Dec 2008

THE BIHAR REGIMENT

To be Nb Sub (GD/Clk)

Hav/Clk Rajesh Kumar (No. 4266940N now JC-560149N), 01 Aug 2008

Hav Surinder Kumar (No. 4269966N now JC-560150H), 26 Feb 2009/01 Nov 2008 (S)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Munna Oraon (No. 4270769X now JC-560151L), 03 Mar 2009/21 Nov 2008 (S)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 21 Nov 2008 without effect on pay and allowances)

CHM Sheo Shankar Prasad Yadav (No. 4267491W now JC-560152N), 09 Feb 2009/21 Nov 2008 (S)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 21 Nov 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Kumar Satendra Narayan Singh (No. 4267834F now JC-560153W), 10 Feb 2009/21 Nov 2008 (S)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 21 Nov 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Nawal Kishore Mishra (No. 4265762K now JC-560154Y), 23 Feb 2009/10 Feb 2009 (S)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 10 Feb 2009 without effect on pay and allowances)

THE PUNJAB REGT

To be Nb Sub

Hav (INFSOL) Manjit Singh (No. 2478821F now JC-430502L), 01 Mar 2009

Hav (INFSOL) Vijay Kumar (No. 2480226W now JC-430503N), 01 Mar 2009

3 GR

To be Nb Sub

Hav Nirpa Bahadur Balal (No. 5245303A now JC-607765F), 01 Feb 2008

Hav Tika Bahadur Thapa (No. 5245802P now JC-607766K), 01 Feb 2008

Hav Krishna Bahadur Gurung (No. 5246065L now JC-607767M), 01 Feb 2008

Hav Dhan Bahadur Magar (No. 5246236M now JC-607768P), 01 Feb 2008

Hav Dhan Bahadur Thapa (No. 5246437L now JC-607769X), 27 Feb 2008/01 Feb 2008*

*(Granted seniority without effect on pay and allowances)

Hav/Clk Prabhat Chandra Sharma (No. 5245373Y now JC-607770M), 01 Mar 2008

Hav/Clk Shankar Datt (No. 5245374F now JC-607771P), 01 Mar 2008

Hav Jit Bahadur Gurung (No. 5245304H now JC-607772X), 01 Mar 2008

Hav Uday Bahadur Gurung (No. 5245306N now JC-607773A), 01 Mar 2008

Hav Tul Bahadur Thapa (No. 5245307W now JC-607774H), 01 Mar 2008

Hav Ram Bahadur Gaha (No. 5245746F now JC-607775L), 01 Mar 2008

Hav Aita Bahadur Pun (No. 5245747K now JC-607776N), 01 Mar 2008

Hav Dev Bahadur Thapa (No. 5245338W now JC-607777W), 01 Mar 2008

Hav Ram Bahadur Thapa (No. 5246004N now JC-607778Y), 01 Mar 2008

Hav Dambar Bahadur Gurung (No. 5246269X now JC-607779F), 01 Mar 2008

Hav/Clk Jot Singh Samant (No. 5245375K now JC-607780W), 01 Apr 2008

Hav Gam Bahadur Gurung (No. 5245718P now JC-607781Y), 01 Apr 2008

Hav Mohan Bahadur Gurung (No. 5246305X now JC-607782F), 01 Apr 2008

Hav Purna Bahadur Saru (No. 5246350K now JC-607783K), 01 Apr 2008

Hav Chandra Bahadur Thapa (No. 5245927M now JC-607784M), 01 Apr 2008

Hav Om Bahadur (No. 5245292Y now JC-607785P), 01 May 2008

Hav Ratna Bahadur Pun (No. 5245838N now JC-607786X), 30 Jun 2008/25 May 2008*

Hav Lok Bahadur Thapa (No. 5245870H now JC-607787A), 30 Jun 2008/25 May 2008*

Hav Dhurva Bahadur Gurung (No. 5245343F now JC-607788H), 01 Jul 2008/01 Jun 2008*

Hav Padam Bahadur Thapa (No. 5245349H now JC-607789L), 15 Aug 2008/25 Jun 2008*

*(Granted seniority without effect on pay and allowances)

Hav/Clk Pawan Kumar Sharma (No. 5245377P now JC-607790A), 01 Aug 2008

Hav Purna Bahadur Rana (No. 5245861F now JC-607791H), 19 Oct 2008/01 Jun 2008*

Hav Tark Bahadur Kshatri (No. 5245381X now JC-607792L), 03 Nov 2008/01 Jul 2008*

Hav Bahadur Shahi Thakuri (No. 5245439K now JC-607793N), 25 Sep 2008/01 Aug 2008*

Hav Bil Bahadur Gurung (No. 5246510Y now JC-607794W), 15 Aug 2008/01 Aug 2008*

*(Granted seniority without effect on pay and allowances)

Hav Laxman Gurung (No. 5245489P now JC-607795Y), 19 Oct 2008/13 Sep 2008*

Hav Bhuvan Bahadur Khatri (No. 5245440Y now JC-607796F), 01 Oct 2008

Hav Nar Bahadur Gurung (No. 5245885L now JC-607797K), 19 Oct 2008/01 Oct 2008*

Hav/Clk Ravi Bhushan Kumar (No. 5245390Y now JC-607798M), 11 Dec 2008/01 Sep 2008*

Hav/Musn Ram Bahadur Thapa (No. 5245611A now JC-607799P), 01 Oct 2008

*(Granted seniority without effect on pay and allowances)

Hav Karna Bahadur Kutwal Chhetri (No. 5245448L now JC-607800Y), 03 Nov 2008/01 Nov 2008*

Hav Bhim Bahadur G C (No. 5246056K now JC-607801F), 03 Nov 2008/01 Nov 2008*

Hav Bhakta Bahadur Gurung (No. 5246038F now JC-607802K), 03 Nov 2008/01 Nov 2008*

Hav Bir Bahadur Thapa (No. 5246254P now JC-607803M), 28 Jan 2009/29 Nov 2008*

Hav Hit Bahadur Gurung (No. 5246562P now JC-607805X), 01 Feb 2009

*(Granted seniority without effect on pay and allowances)

9 GR

To be Nb Sub

Hav Lal Prasad Adhikari (No. 5846434P now JC-629871A), 01 May 2008

Hav/Clk Indra Mohan Swargiary (No. 5846452X now JC-629872H), 01 Aug 2008

Hav Padam Bahadur Suyal (No. 5846689P now JC-629873L), 01 Sep 2008

9—144 GI/2009

Hav/Clk Govind Prakash Mishra (No. 5846393W now JC-629874N), 18 Nov 2008/27 Sep 2008*

Hav Bhim Bahadur Bhandari (No. 5846853M now JC-629875W), 01 Oct 2008

*(Granted seniority without effect on pay and allowances)

Hav Parshu Ram Shrestha (No. 5846358N now JC-629847K), 21 Feb 2008/01 Dec 2007*

Hav Bhavindra Vikram Shahi (No. 5846667W now JC-629867X), 01 Feb 2008

Hav/Clk Jai Singh (No. 5846292H now JC-629868A), 03 Mar 2008/01 Mar 2008*

Hav Ghan Bahadur Khatri (No. 5846095A now JC-629869H), 29 Mar 2008/01 Mar 2008*

Hav Toran Bahadur Thapa (No. 5846558K now JC-629870X), 01 Mar 2008

*(Granted seniority without effect on pay and allowances)

Hav Tikendra Rayamajhi (No. 5847052X now JC-629876Y), 01 Oct 2008

Hav/Clk Surender Kumar (No. 5846492F now JC-629877F), 22 Nov 2008/01 Nov 2008*

Hav Rajesh Kumar Chhetri (No. 5846083L now JC-629878K), 01 Nov 2008

Hav Bishnu Bahadur Kandel (No. 5846087F now JC-629879M), 01 Nov 2008

Hav Hari Bahadur K C (No. 5846090F now JC-629880F), 01 Nov 2008

*(Granted seniority without effect on pay and allowances)

Hav Bhuwan Bahadur Thapa (No. 5846018L now JC-629881K), 18 Dec 2008/01 Nov 2008*

Hav Yam Bahadur Bhandari (No. 5846248Y now JC-629882M), 19 Dec 2008/26 Oct 2008*

Hav/Musn Rook Prasad Gurung (No. 5845511M now JC-629883P), 18 Dec 2008/01 Dec 2008*

Hav Mukti Bahadur K C (No. 5846089M now JC-629884X), 17 Dec 2008/01 Dec 2008*

Hav Bharat Bahadur Thapa (No. 5846212A now JC-629885A), 01 Dec 2008

*(Granted seniority without effect on pay and allowances)

Hav Sher Bahadur Gharty Chhetri (No. 5846217Y now JC-629886H), 01 Dec 2008

Hav Gunga Bahadur Kunwar (No. 5846450M now JC-629887L), 10 Jan 2009/10 Dec 2008*

Hav Shree Purna Bahadur Thapa (No. 5846263N now JC-629889W), 01 Jan 2009

Hav Bhagwan Malla (No. 5846991N now JC-629890L), 01 Jan 2009

Hav Dil Bahadur Thapa (No. 5846486L now JC-629892W), 01 Feb 2009

*(Granted seniority without effect on pay and allowances)

THE PUNJAB REGIMENT

(To be Nb Sub Religious Teachers (Pandit))

Nb Sub R T (Pandit) Binod Kumar Tiwari (JC-430365X), 06 Sep 2008

Nb Sub R T (Pandit) Mahesh Kumar Shukla (JC-430413M),
06 Sep 2008

J ROY CHOWDHURY
Under Secy.

(ARMY BRANCH)

No. 380, dated 27th May 2009—The President is pleased
to make the following promotions:—

REGULAR ARMY
ARMY ORDNANCE CORPS

To be Nb Sub

Hav (AT) Gautam Barua (No. 6930588H now JC-728427M),
01 Jul 2008

Hav (AT) Mohan Singh (No. 6931236X now JC-728428P),
01 Jan 2009

Hav (AT) Raju K N (No. 6930871W now JC-728429X),
01 Apr 2009

Hav (Clk S Cont) Rajkumar (No. 6922645K now JC-
728430M), 01 Jul 2008

Hav (Clk S Cont) A K Singh (No. 6922802L now JC-
728431P), 01 Sep 2008

Hav (Clk S Cont) M S Rathore (No. 6923475X now JC-
728432X), 01 Mar 2009

Hav (Clk S Cont) Rajaram (No. 6923744Y now JC-
728433A), 01 May 2009*

*(Granted seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Apr
2009 without effect on pay and allowances)

Hav (Clk S Cont) Raj Kumar (No. 6923755L now JC-
728434H), 01 May 2009

Hav (SKT GS&C) Kushala Ram (No. 6922042N now JC-
728435L), 01 Feb 2008

Hav (SKT GS&C) Jajneswar Khuntia (No. 6922060W now
JC-728436N), 01 Mar 2008

Hav (SKT MT) Pradeep Kumar (No. 6922186W now JC-
728437W), 01 May 2008

Hav (SKT GS&C) Arvind Kumar (No. 6922349Y now JC-
728438Y), 01 Oct 2008

Hav (SKT GS&C) S R Singh (No. 6923265X now JC-
728439F), 01 Mar 2009

Hav (SKT Sig) L Sahoo (No. 6923268L now JC-728440W),
01 Mar 2009

Hav (SKT Sig) Mohan Kumar A K (No. 6923287W now
JC-728441Y), 01 Mar 2009

Hav (SKT Sig) Babu Pillai V (No. 6923291Y now JC-
728442F), 16 Apr 2009*

*(Granted seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Mar
2009 without effect on pay and allowances)

Hav (SKT GS&C) H S Das (No. 6923331P now JC-
728443K), 01 Mar 2009

Hav (SKT Sig) Balappa Kutre (No. 6923348H now JC-
728444M), 03 Apr 2009*

*(Granted seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Mar
2009 without effect on pay and allowances)

Hav (SKT MT) Ved Prakash (No. 6923538P now JC-
728445P), 01 Apr 2009

Hav (SKT MT) N S Rathore (No. 6923547W now JC-
728446X), 01 Apr 2009

Hav (SKT MT) R S Chaudhary (No. 6923548Y now JC-
728447A), 02 Apr 2009*

*(Granted seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Apr
2009 without effect on pay and allowances)

Hav (SKT Wep) L S Gour (No. 6923552F now JC-728448H),
15 Apr 2009*

*(Granted seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Apr
2009 without effect on pay and allowances)

Hav (SKT Wep) B L Choudhary (No. 6923556X now JC-
728449L), 01 Apr 2009

Hav (SKT GS&C) R L Gehlot (No. 6923560A now JC-
728450A), 01 Apr 2009

Hav (SKT GS&C) D R Choudhary (No. 6923563N now
JC-728451H), 05 Apr 2009*

*(Granted seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Apr
2009 without effect on pay and allowances)

Hav (SKT MT) B R K Jagannath (No. 6922457H now JC-
728452L), 24 Apr 2009*

*(Granted seniority in the Rank of Nb Sub wef 05 Apr
2009 without effect on pay and allowances)

Hav (Dvr MT) PK Saha (No. 6922146P now JC-728453N),
27 Feb 2009*

*(Granted seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Oct
2008 without effect on pay and allowances)

N. K. KASHMIRA
Under Secy.